

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड I

PART—I Section I

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० २२७]

नई दिल्ली, शुक्रवार दिनांक ६, १९६८/अग्रहायण १५, १८९०

No. 227]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 6, 1968/AGRAHAYANA 15, 1890

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

वित्त मंत्रालय

अर्थ विभाग

संकल्प

नई दिल्ली, २० नवम्बर, १९६८

संख्या एफ ३ (४३)-बी/६८.—१९६८-६९ का वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसका २९ फरवरी, १९६८ को संसद के सम्मुख प्रस्तुत किया गया था, अब सामान्य जानकारी के लिये अपने अन्तिम रूप में प्रकाशित किया जाता है।
२. अनुदानों की मांगें बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर ली गयी थी।

MINISTRY OF FINANCE


(Department of Economic Affairs)

RESOLUTION

New Delhi, the 20th November 1968

No. F. 3(43)-B/68.—The Annual Financial Statement for 1968-69 as presented to Parliament on the 29th February, 1968 is now published in its final form for general information.

2. The Demands for Grants were voted without modification.



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



केन्द्रीय सरकार
का
1968-69
का
बजट
BUDGET
OF THE
CENTRAL GOVERNMENT
FOR
1968-69

(जैसा कि अन्तिम रूप से स्वीकार किया गया)
(As Finally adopted)

वित्त मंत्रालय
नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 1968
MINISTRY OF FINANCE,
New Delhi, the 20th November, 1968

टी० पी० सिंह,
सचिव, भारत सरकार
T. P. Singh,
Secretary to the Government of India.

सूची

CONTENTS

- I—केन्द्रीय सरकार की प्राप्तियों और भुगतानों का सामान्य विवरण
II—केन्द्रीय सरकार की प्राप्तियों और भुगतानों का विस्तृत विवरण

- | | PAGES |
|--|----------|
| I.—General Statement of Receipts and Disbursements of the Central Government | 986—993 |
| II.—Detailed Statement of Receipts and Disbursements of the Central Government | 994—1025 |

I.—केन्द्रीय सरकार की प्राप्तियों और
I.—GENERAL STATEMENT OF RECEIPTS AND
RECEIPTS
 (हज़ार रुपयों में)
 (In thousands of Rupees)

प्राप्तियाँ	धोरे के लिए विवरण देखिए	वास्तविक प्राप्तियाँ 1966-67 Accounts, 1966-67	बजट अनुमान 1967-68 Budget Estimate, 1967-68	संशोधित अनुमान 1967-68 Revised Estimate, 1967-68	बजट अनुमान 1968-69 Budget Estimate 1968-69
	For details <i>vide</i> Statement				
I—भारत की समेकित निधि—	I.—CONSOLIDATED FUND OF INDIA—				
राजस्व प्राप्तियाँ—	REVENUE RECEIPTS—				
कर, शुल्क और राजस्व के अन्य मुख्य शीर्षक—	TAXES, DUTIES AND OTHER PRINCIPAL HEADS OF REVENUE—				
	II				
सीमा-शुल्क	Customs	5,85,36,54	6,40,13,00	5,22,69,00	{ 5,19,97,00 + 19,30,00*
केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क	Union Excise Duties	10,33,78,23	11,87,32,00	11,63,48,00	{ 12,49,65,00 + 36,43,00* — 6,84,00†
निगम-कर	Corporation Tax	3,28,89,76	3,50,00,00	3,19,65,00	{ 3,24,35,00 — 4,00,00*
निगम-कर से भिन्न आय सम्बन्धी कर	Taxes on Income other than Corporation Tax	1,71,58,52	1,58,41,78	1,25,83,14	{ 1,57,31,49 + 5,84,00* 68,70
भूत-सम्पत्ति-शुल्क	Estate Duty	1,71,07	30,59	67,32	
सम्पत्ति-कर	Taxes on Wealth	10,58,41	12,50,00	11,00,00	11,00,00
व्यय-कर	Expenditure Tax	7,46	9,00	3,00	3,00
दान-कर	Gift Tax	1,74,73	1,59,10	1,50,00	1,75,00
अन्य शीर्षक	Other Heads	31,12,49	32,00,40	35,51,46	38,90,94
जोड़—कर, शुल्क और राजस्व के अन्य मुख्य शीर्षक	TOTAL—TAXES, DUTIES AND OTHER PRINCIPAL HEADS OF REVENUE	21,64,87,21	23,82,26,77	21,80,36,92	{ 23,03,66,19 + 50,73,00*
आगे से नायी गयी रकम	Carried Over	21,64,87,21	23,82,26,77	21,80,36,92	{ 23,03,66,19 + 50,73,00*

टिप्पणी—1966-67 का खाता अन्तिम रूप से बन्द नहीं किया गया है और यहाँ जो वास्तविक आंकड़े दिये गये हैं वे केवल अन्तिम हैं।

NOTE.—The Accounts for 1966-67 have not been finally closed and the actuals given here are only provisional.

वित्त अधिनियम, 1968 का प्रभाव

*Effect of Finance Act, 1968.

†केन्द्रीय उत्पादन-शुल्कों में से राज्यों को दिये जाने वाला हिस्सा जो राजस्व में से घटा दिया गया है।

†Share of Union Excise Duties payable to States which has been taken in reduction of Revenue.

भुगतानों का सामान्य विवरण—जारी

DISBURSEMENTS OF THE CENTRAL GOVERNMENT—contd.

भुगतान

DISBURSEMENTS

(हजारों रुपये में)

(In thousands of Rupees)

	ब्योरे के लिए विवरण देविए For details vide Statement	वास्तविक भुगतान 1966-67 Accounts, 1966-67	बजट अनुमान 1967-68 Budget Estimate, 1967-68	संशोधित अनुमान 1967-68 Revised Estimate, 1967-68	बजट अनुमान 1968-69 Budget Estimate, 1968-69
—भारत की समेकित निधि—					
I.—CONSOLIDATED FUND OF INDIA					
राजस्व से किया जाने वाला व्यय—					
EXPENDITURE MET FROM REVENUE—					
करों, शुल्कों और अन्य मुख्य राजस्वों का संग्रह	COLLECTION OF TAX, DUTIES AND OTHER PRINCIPAL REVENUES . II	32,19,65	34,53,39	36,13,83	39,90,07
कृण व्यवस्था	DEBT SERVICES . ,	4,63,44,96	5,09,97,16	5,08,29,53	5,50,32,13
प्रशासनिक सेवाएं	ADMINISTRATIVE SERVICES ,	1,22,95,55	1,23,77,11	1,36,67,39	1,40,40,84
सामाजिक और विकास सम्बन्धी सेवाएं	SOCIAL AND DEVELOPMENTAL SERVICES ,	1,93,09,62	2,40,01,83	2,27,82,47	2,52,17,23
बहुप्रयोजनी नदी योजनाएं, सिंचाई और बिजली योजनाएं	MULTI-PURPOSE RIVER SCHEMES, IRRIGATION AND ELECTRICITY SCHEMES . ,	2,04,28	3,15,67	4,03,63	3,55,41
आगे ले जायी गयी रकम	Carried over .	8,13,75,06	9,11,45,16	9,12,96,85	9,86,35,68

I—केन्द्रीय सरकार की प्राप्तियाँ

I.—GENERAL STATEMENT OF RECEIPTS AND

प्राप्तियाँ

RECEIPTS

(हजारों रुपये में)

(In thousands of Rupees)

	व्योरे के लिये विवरण देखिये	वास्तविक प्राप्तियाँ 1966-67	बजट अनुमान 1967-68	संशोधित अनुमान 1967-68	बजट अनुमान 1968-69
	For details vide Statement	Accounts, 1966-67	Budget Estimate, 1967-68	Revised Estimate, 1967-68	Budget Estimate, 1968-69
I—भारत की समेकित निधि—		I.—CONSOLIDATED FUND OF INDIA—			
आगे लायी गयी रकम	Brought Forward	21,64,87,21	23,82,26,77	21,80,36,92	23,03,66,13 + 50,73,00*
शून्य-व्यवस्था	DEBT SERVICES	3,77,48,32	4,09,00,37	4,17,32,30	4,49,18,71
प्रशासनिक सेवाएं	ADMINISTRATIVE SERVICES	10,64,23	9,30,51	10,04,59	10,00,42
सामाजिक और विकास सम्बन्धी सेवाएं	SOCIAL AND DEVELOPMENTAL SERVICES	22,52,99	22,86,55	26,22,36	25,95,22
बहुप्रयोजनी नदी योजनाएं, सिंचाई और बिजली योजनाएं	MULTI-PURPOSE RIVER SCHEMES, IRRIGATION AND ELECTRICITY SCHEMES	29,16	15,27	89,50	1,96,76
लोक-निर्माण-कार्य (सड़कों सहित) और लोक-निर्माण सम्बन्धी विविध सुधारों की योजनाएं	PUBLIC WORKS (INCLUDING ROADS) AND SCHEMES OF MISCELLANEOUS PUBLIC IMPROVEMENTS	5,62,44	4,59,79	5,44,10	5,86,57
परिवहन और संचार (सड़कों से भिन्न)	TRANSPORT AND COMMUNICATIONS (OTHER THAN ROADS)	9,13,48	10,95,23	11,12,01	11,37,42
मुद्रा और टकसाल	CURRENCY AND MINT	68,30,07	78,02,13	78,54,63	86,05,00
विविध	MISCELLANEOUS	25,33,97	21,41,96	27,40,83	22,49,00
अंशदान और विविध समायोजन (रेलों तथा डाक और तार के अंशदानों से भिन्न)	CONTRIBUTIONS AND MISCELLANEOUS ADJUSTMENTS (OTHER THAN CONTRIBUTIONS FROM RAILWAYS AND P.&T.)	7,85,75	6,46,71	10,70,30	10,83,11
रेलों का अंशदान	CONTRIBUTIONS FROM RAILWAYS	30,75,78	30,98,06	29,70,12	30,52,00
डाक और तार का अंशदान	CONTRIBUTIONS FROM POSTS AND TELEGRAPHS	..	4,06,18	16,41,32	3,11,99
असाधारण मदें	EXTRAORDINARY ITEMS	8,22,39	9,47,53	8,34,84	15,54,00
जोड़—राजस्व प्राप्तियाँ	TOTAL—REVENUE RECEIPTS	27,31,05,79	29,89,57,06	28,12,53,82	29,76,56,82 + 50,73,00
राजस्व से व्यय की अधिकता अर्थात् कमी	EXCESS OF EXPENDITURE OVER REVENUE OR DEFICIT	..	..	..	..
जोड़	TOTAL	27,31,05,79	29,89,57,06	28,12,53,82	30,27,29,82

*वित्त अधिनियम, 1968 का प्रभाव

Effect of Finance Act, 1968

और भुगतानों का सामान्य स्वरण—जारी

DISBURSEMENTS OF THE CENTRAL GOVERNMENT—*concl'd.*

भुगतान

DISBURSEMENTS

(हजारों रुपये में)

(In thousands of Rupees)

	ब्योरे के लिए विवरण दिया	वास्तविक भुगतान 1966-67	बजट अनुमान 1967-68	संशोधित अनुमान 1967-68	बजट अनुमान 1968-69
	For details <i>vide</i> Statement	Accounts, 1966-67	Budget Estimate, 1967-68	Revised Estimate, 1967-68	Budget Estimate, 1968-69
I—भारत की समेकित निधि—	I—CONSOLIDATED FUND OF INDIA—				
आगे लायी गयी रकम	Brought Forward	8,13,75,06	9,11,45,16	9,12,96,85	9,86,35,68
लोक-निर्माण-कार्य (सड़कों सहित) और लोक-निर्माणसम्बन्धी विविध सुधारों की योजनाएं	PUBLIC WORKS (INCLUDING ROADS) AND SCHEMES OF MISCELLANEOUS PUBLIC IMPROVEMENTS II	26,50,86	28,39,06	27,72,01	32,08,84
रिक्वहन और संचार (सड़कों से भिन्न)	TRANSPORT AND COMMU- NICATIONS (OTHER THAN ROADS)	12,29,11	14,12,31	15,27,78	12,82,16
मुद्रा और टकसाल	CURRENCY AND MINT	20,21,71	21,44,80	23,42,60	24,45,02
विविध	MISCELLANEOUS	1,75,07,59	1,67,17,51	1,71,63,12	1,82,37,05
अंशदान और विविध समायोजन	CONTRIBUTIONS AND MIS- CELLANEOUS ADJUSTMENTS	6,42,58,46	6,90,49,16	7,08,33,08	7,52,36,67
असाधारण मर्चे	EXTRAORDINARY ITEMS	14,07,03	10,48,18	9,27,66	11,46,74
रक्षा सेवाएं (क)	DEFENCE SERVICES(a)	7,97,79,71	8,42,49,48	8,56,81,53	8,94,46,00
जोड़—राजस्व से किया जाने वाला व्यय	TOTAL—EXPENDITURE MET. FROM REVENUE	25,02,29,53	26,86,05,66	27,25,44,63	28,96,38,16
व्यय से राजस्व की अधिकता का अतिशेष	EXCESS OF REVENUE OVER EXPENDITURE OR SUR- PLUS	2,28,76,26	3,03,51,40	87,09,19	80,18,72 + 50,73,00*
जोड़	TOTAL	27,31,05,79	29,89,57,06	28,12,53,82	30,27,29,88

(क) शुद्ध आंकड़े: प्राप्तियां व्यय में से घटा दी गयी हैं।

(a) Figures shown net; the receipts have been deducted.

वित्तप्रधिनियम 1968 का प्रभाव

*Effect of Finance Act 1968

I—केंद्रीय सरकार की प्राप्तियों और

I—GENERAL STATEMENT OF RECEIPTS AND

प्राप्तियां

RECEIPTS

(हजारों रुपये में)

(in thousand of Rupees.)

	व्योरे के लिये विवरण देखिये	वास्तविक प्राप्तियां 1966-67	बजट अनुमान 1967-68	संशोधित अनुमान 1967-68	बजट अनुमान 1968-69
	For details <i>vide</i> Statement	Accounts, 1966-67	Budget Estimate, 1967-68	Revised estimate, 1967-68	Budg Estimate, 1968-69
1—भारत की समेकित निधि—	I.—CONSOLIDATED FUND OF INDIA—				
राजस्व का अधिशेष (जैसा कि पृष्ठ 5 पर दिखाया गया है)	REVENUE SURPLUS (As SHOWN IN PAGE 5)	2,28,76,26	3,03,51,40	7,09,19	1,30,91,72
राजस्व खाते से बाहर की पूंजीगत प्राप्तियां	CAPITAL RECEIPT OUT- SIDE REVENUE AC- COUNT II	..	..	..	..
सरकारी ऋण—	PUBLIC DEBT—				
स्थायी ऋण—	PERMANENT DEBT—				
भारत में लिया जाने वाला ऋण	Debt raised in India. „	3,28,71,97	3,51,70,00	4,27,13,25	3,00,70,00
भारत से बाहर लिया जाने वाला ऋण	Debt raised outside India	8,66,04,82	10,15,00,00	10,15,01,77	10,19,00,00
अस्थायी ऋण—	FLOATING DEBT—				
राजकोष वृण्डिया (शुद्ध)	Treasury Bills (net). .	3,07,72,75	..	1,70,00,00	12,90,00,00
अन्य अस्थायी ऋण (शुद्ध)	Other Floating Debt (net)	3,49,09,35	2,48,75	48,75	1,48,75
ऋणों और अग्रिमों का परिशोधन	REPAYMENT OF LOANS AND ADVANCES—				
राज्यों और संघीय राज्य-क्षेत्रों की सरकारें	State and Union Terri- tory Governments „	2,81,29,56	3,43,00,00	3,85,00,00	4,25,00,00
अन्य ऋण और अग्रिम	Other Loans and Advances „	1,37,25,47	87,00,00	1,08,00,00	1,24,00,00
अन्तर्राज्यीय निपटारा	INTER-STATE SETTLE- MENT „	..	..	..	..
जोड़—भारत की समेकित निधि—	TOTAL—CONSOLIDATED FUND OF INDIA—				
आगे ले जायी गयी रकम	Carried over .	24,98,90,18	21,02,70,15	21,92,72,96	22,91,10,47

भुगतानों का सामान्य विवरण—जारी

DISBURSEMENTS OF THE CENTRAL GOVERNMENT—contd.

भुगतान

DISBURSEMENTS

(हजारों रुपये में)

(In thousands of Rupees)

	अधोरे के लिए विवरण देखा	वास्तविक भुगतान 1966-67	बजट अनुमान 1967-68	संशोधित अनुमान 1967-68	बजट अनुमान 1968-69
	For details vide Statement	Accounts, 1966-67	Budget Estimate, 1967-68	Revised Estimate, 1967-68	Budget Estimate, 1968-69
I—भारत की समेकित निधि—	I-CONSOLIDATED— FUND OF INDIA—				
राजस्व की कमी (जो पृष्ठ 4 पर दिखाई गई है)	Revenue Deficit (as shown in Page 4)				
राजस्व से किया जाने वाला पूंजीगत व्यय	CAPITAL ACCOUNT NOT MET FROM REVENUE—				
सामाजिक और विकास सम्बन्धी सेवाएं	SOCIAL AND DEVELOPMENTAL SERVICES II	1,96,20,64	2,22,27,20	2,00,69,62	2,36,92,31
बहुप्रयोजनी नदी योजनाएं, सिंचाई और बिजली योजनाएं	MULTIPURPOSE RIVER SCHEMES, IRRIGATION AND ELECTRICITY SCHEMES "	17,17,32	24,81,32	21,27,04	24,08,99
लोक-निर्माण कार्य (सड़कों सहित) और लोक-निर्माण सम्बन्धी सुधार की विविध योजनाएं	PUBLIC WORKS (INCLUDING ROADS) AND SCHEMES OF MISCELLANEOUS PUBLIC IMPROVEMENTS "	58,16,47	62,12,97	65,62,35	69,09,00
परिवहन और संचार (सड़कों से भिन्न)	TRANSPORT AND COMMUNICATIONS (OTHER THAN ROADS) "	10,00,60	9,84,99	8,62,34	16,29,25
मुद्रा और टकसाल	CURRENCY & MINT. "	2,18,46,30	19,96,24	15,57,13	14,05,08
विविध	MISCELLANEOUS . "	4,94,67,18	2,80,24,61	2,80,80,35	1,06,77,39
रक्षा सम्बन्धी पूंजी परिव्यय	DEFENCE CAPITAL OUTLAY . "	1,10,79,48	1,20,87,55	1,13,32,26	1,20,80,00
रेलों की पूंजी (जो रेलों के बजट में दिखायी गयी है)	RAILWAY CAPITAL (AS SHOWN IN THE RAILWAY BUDGET) . "	1,60,70,29	1,61,75,00	1,50,00,00	1,43,00,00
डाक और तार	POSTS AND TELEGRAPHS . "	29,76,74	31,68,00	30,92,00	30,45,54
जोड़—राजस्व से न किया जाने वाला पूंजीगत व्यय	TOTAL—CAPITAL ACCOUNT NOT MET FROM REVENUE .	12,95,95,02	9,33,57,88	8,86,83,09	7,61,47,56
ऋण परिशोधन	REPAYMENT OF DEBT—				
स्थायी ऋण	PERMANENT DEBT—				
भारत में लिया जाने वाला ऋण	Debt raised in India	1,83,04,40	2,58,50,00	2,59,70,00	2,44,40,00
भारत से बाहर लिया-जाने वाला ऋण	Debt raised outside India .	1,62,07,59	1,95,43,69	1,84,93,00	1,94,47,44
केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जाने वाले ऋण और अग्रिम—	LOANS AND ADVANCES BY CENTRAL GOVERNMENT—				
राज्यों और संघीय राज्य-क्षेत्रों की सरकारें	State and Union Territory Governments . "	9,30,88,81	8,40,01,72	8,85,37,09	8,55,68,17
अन्य ऋण और अग्रिम	Other Loans and Advances . "	4,76,38,71	3,93,28,05	4,92,57,67	4,60,73,66
अन्तराज्यीय निपटारा	INTER-STATE SETTLEMENT . "		4,50	63	83
जोड़—1 भारत की समेकित निधि	TOTAL—I—CONSOLIDATED FUND OF INDIA	30,48,84,53	26,20,85,84	27,09,41,48	25,16,77,66
आगे ले जायी गयी रकम	Carried over				

I.—केन्द्रीय सरकार की प्राप्तियों और

I.—GENERAL STATEMENT OF RECEIPTS AND

प्राप्तियाँ	RECEIPTS	(हजार रुपयों में) (In thousands of Rupees)				
		इससे के लिये विवरण देखिये For details vide Statement	वास्तविक प्राप्तिभां 1966-67 Accounts, 1966-67	बजट अनुमान 1967-68 Budget Estimate, 1967-68	संशोधित अनुमान 1967-68 Revised Estimate, 1967-68	बजट अनुमान 1968-69 Budget Estimate, 1968-69
आगे लायी गयी रकम	Brought Forward		24,98,90,18	21,02,70,15	21,92,72,96	22,91,10,47
II--भारत की आकस्मिकता निधि	II.-CONTINGENCY FUND OF INDIA	II	1,35,01	52,45	2,50	..
III--सार्वजनिक खाता	III.-PUBLIC AC-					
अनिविष्ट ऋण--	COUNT-- UNFUNDED DEBT--					
छोटी बचतें (शुद्ध)*	Small Savings (Net)@	..	1,18,23,47	1,30,10,00	1,10,20,00	1,20,20,00
राज्य भविष्य निधियां (शुद्ध)	State Provident Funds (Net)	..	47,91,96	55,06,84	73,00,00	33,74,90
सार्वजनिक भविष्य निधि	Public Provident Fund	..	..	..	..	10,00,00*
आयकर वार्षिकी जमा (शुद्ध)	Income Tax Annuity Deposits (Net)	..	27,63,33	22,00,00	28,40,00	26,00,00
अनिवार्य जमा (शुद्ध)	Compulsory Deposits (Net)	..	-74,71	-50,00	-40,00	-35,00,00*
अमरीकी सरकार की प्रतिरूप निधि की जमा का निवेश (शुद्ध)	Investment of Deposits of U.S. Government Counterpart Funds (Net)	..	-2,66,00	1,35,00,00	71,00,00	25,00,00
अन्य मदें (शुद्ध)	Other Items (Net)	..	1,37,32	1,27,61	37,55,58	1,69,36
जोड़	TOTAL		1,91,75,37	3,42,94,45	3,19,75,58	2,06,39,26 -25,00,00*
जमा और अधिम	DEPOSITS AND ADVANCES--					
मूल्यह्रास और अन्य प्रारक्षित निधियां (शुद्ध)	Depreciation and other Reserve Funds (Net)	..	2,37,24	27,71,28	..	21,63,78†
ऋण में कमी करने या ऋण से बचने के लिये विनियोग	Appropriation for Reduction or Avoidance of Debt	..	5,00,00	5,00,00	5,00,00	5,00,00
अन्य जमा और अधिम (शुद्ध)	Other Deposits and Advances (Net)	..	3,48,70,77	1,53,73,94	1,53,57,08	26,03,92
जोड़	TOTAL		3,56,08,01	1,86,45,22	1,58,57,08	52,67,70
प्रेषणाएं (शुद्ध)	REMITTANCES (NET)	..	31,21,85	4,94,55	..	..
इंग्लैंड और भारत के बीच नकदी का अन्तरण (शुद्ध)	TRANSFER OF CASH BETWEEN ENGLAND AND INDIA (NET)	..	31,50,61	..	..	..
जोड़--III --सार्वजनिक खाता	TOTAL--III--PUBLIC ACCOUNT		6,10,55,64	5,34,33,22	4,78,32,66	2,34,00,96
घटाइए--वित्तिय संस्थाओं और आकस्मिक व्यय के लिए व्यवस्था	Deduct--Provision for Financial Institutions and Contingencies	..	..	-16,00,00	..	..
जोड़--प्राप्तियाँ	TOTAL--RECEIPTS		31,10,81,03	26,21,56,82	26,71,08,12	25,25,17,43
पूर्व-शेष	Opening Balance		43,62,93	50,54,08	1,06,06,91	51,06,91
जोड़	TOTAL		31,54,43,96	26,72,10,90	27,77,15,03	25,76,24,34

@टिप्पणी—इसमें “सरकारी ऋण” में सम्मिलित वार्षिकी-पत्र शामिल नहीं हैं।

@NOTE.—Excludes Annuity Certificates included under “Public Debt”.

*वित्त अधिनियम, 1968 का प्रभाव

Effect of Finance Act, 1968.

†इसमें वित्त अधिनियम, 1968 के परिणामस्वरूप डाक-तार नोंधियों के सम्बन्ध में 23.83 करोड़ रुपये की जमा शामिल है।

†In Rs. 23.83 crores in respect of P & T. Funds as a result of the Finance Act, 1968.

भुगतानों का सामान्य विवरण—समाप्त

DISBURSEMENTS OF THE CENTRAL GOVERNMENT—concl'd.

भुगतान	DISBURSEMENTS		(हजार रुपयों में) (In thousands of Rupees)		
	व्योरे के लिये विवरण (देखिये)	वास्तविक भुगतान 1966-67	बजट अनुमान 1967-68	संशोधित अनुमान 1967-68	बजट अनुमान 1968-69
	For details vide Statement	Accounts, 1966-67	Budget Estimate, 1967-68	Revised Estimate, 1967-68	Budget Estimate, 1968-69
आगे लायी गयी रकम	Brought Forward	30,48,34.53	26,20,85.84	27,09,41.48	25,16,77.66
II-- भारत की आकस्मिकता निधि	II.—CONTINGENCY FUND OF INDIA	2.50	..	..	..
III--सार्वजनिक खाता--	III.—PUBLIC ACCOUNT—				
जमा और अग्रिम	DEPOSITS AND ADVANCES—				
मूल्यहान और अन्य प्रारक्षित निधियां (शुद्ध)	Depreciation and other Reserve Funds (Net)	..	..	11,39.38	..
अन्य जमा और अग्रिम (शुद्ध)	Other Deposits and Advances (Net)	..	..	..	..
जोड़	TOTAL	..	..	11,39.38	..
प्रेषणाएं (शुद्ध)	REMITTANCES (NET)	..	..	5,27.26	7,66.77
रिजर्व बैंक में जमा (शुद्ध)	RESERVE BANK DEPOSITS (NET)	2	..	..	..
जोड़ - III--सार्वजनिक खाता	TOTAL—III—PUBLIC ACCOUNT	2	..	16,66.64	7,66.77
जोड़ --भुगतान	TOTAL—DISBURSEMENTS	30,48,37.05	26,20,85.84	27,26,08.12	25,24,44.43
इति शेष	Closing Balance	1,06,06.91	51,25.06	51,06.91	51,79.91
जोड़	TOTAL	31,54,43.96	26,72,10.90	27,77,15.03	25,76,24.34

II—केन्द्रीय सरकार की प्राप्तियों II—ESTIMATES OF RECEIPTS AND

प्राप्तियाँ	RECEIPTS	(हजार रुपयों में) (In thousands of Rupees)			
		वास्तविक प्राप्तियाँ	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	बजट अनुमान
		1966-67	1967-68	1967-68	1968-69
		Accounts, 1966-67	Budget Estimate, 1967-68	Revised Estimate, 1967-68	Budget Estimate, 1968-69
I—भारत की समेकित निधि—	I.—CONSOLIDATED FUND OF INDIA—				
कर, शुल्क और राजस्व के अन्य मुख्य शीर्षक—	TAXES, DUTIES AND OTHER PRINCIPAL HEADS OF REVENUE—				
I—सीमा शुल्क	I.—Customs	5,85,36,54	6,40,13,00	5,22,69,00	5,39,27,00
II—केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क	II.—Union Excise Duties	10,33,78,23	11,87,32,00	11,63,48,00	12,79,24,00
III—निगम-कर	III.—Corporation Tax	3,28,89,76	3,50,00,00	3,19,65,00	3,20,35,00
IV—निगम-कर से भिन्न आय सम्बन्धी कर	IV.—Taxes on Income other than Corporation Tax	1,71,58,52	1,58,41,78	1,25,83,14	1,63,15,49
V—मृत-सम्पत्ति-शुल्क	V.—Estate Duty	1,71,07	30,59	67,32	68,70
VI—सम्पत्ति-कर	VI.—Taxes on Wealth	10,58,41	12,50,00	11,00,00	11,00,00
VII—अय-कर	VII.—Expenditure Tax	7,46	9,00	3,00	3,00
VIII—दान-कर	VIII.—Gift Tax	1,74,73	1,50,00	1,50,00	1,75,00
IX—भू-राजस्व	IX.—Land Revenue	18,09	20,86	14,34	18,33
X—राज्य उत्पादन-शुल्क	X.—State Excise Duties	2,49,20	2,15,92	3,18,54	3,96,60
XI—गाड़ियों पर कर	XI.—Taxes on Vehicles	1,37,45	1,46,43	1,51,78	1,60,91
XII—बिक्री-कर	XII.—Sales Tax	15,97,37	17,45,59	19,06,97	21,07,28
XIII—अन्य कर और शुल्क	XIII.—Other Taxes and Duties	5,19,37	5,10,69	5,82,87	6,21,41
XIV—स्टाम्प	XIV.—Stamps	5,73,00	5,45,00	5,59,25	5,68,20
XV—रजिस्ट्री फीस	XV.—Registration Fees	18,01	15,91	17,71	18,21
जोड़—कर, शुल्क और राजस्व के अन्य मुख्य शीर्षक	TOTAL—TAXES, DUTIES AND OTHER PRINCIPAL HEADS OF REVENUE	21,64,87,21	23,82,26,77	21,80,36,92	23,54,39,13
जून व्यवस्था—	DBBT SERVICES—				
XVI—व्याज—	XVI.—Interest—				
राज्यों और संघीय राज्यक्षेत्रों की सरकारों से व्याज	Interest from State and Union Territory Governments	1,84,68,23	1,95,00,00	1,95,00,00	2,05,00,00
रेलों से व्याज	Interest from Railways	1,01,63,40	1,10,57,80	1,11,38,31	1,21,48,24
वाक और तार से व्याज	Interest from Posts and Telegraphs	9,36,09	11,72,11	11,93,71	9,69,65
अन्य वाणिज्यिक विभागों से व्याज	Interest from Other Commercial Departments	4,63,74	91,70,46	99,00,28	1,13,00,82
अन्य व्याज प्राप्तियाँ	Other Interest Receipts	77,16,86			
जोड़—जून-व्यवस्था	TOTAL—DBBT SERVICES	3,77,48,32	4,09,00,37	4,17,32,30	4,49,18,71
घाटे से जारी गयी रकम	Carried over	25,42,35,53	27,91,27,14	25,97,69,22	28,03,57,84

और भुगतानों के अनुमान — जारी

DISBURSEMENTS OF THE CENTRAL GOVERNMENT—Contd.

भुगतान	DISBURSEMENTS	(हज़ार रुपयों में) (In thousands of Rupees)			
		वास्तविक भुगतान 1966-67	बजट अनुमान 1967-68	संशोधित अनुमान 1967-68	बजट अनुमान 1968-69
		Accounts, 1966-67	Budget Estimate, 1967-68	Revised Estimate, 1967-68	Budget Estimate, 1968-69
I.—भारत की समेकित निधि—जारी					
I.—CONSOLIDATED FUND OF INDIA—contd.					
करों, शुल्कों और अन्य मुख्य राजस्वों का संग्रह—		COLLECTION OF TAXES, DUTIES AND OTHER PRINCIPAL REVENUES—			
1—सीमा-शुल्क	1.—Customs	5,28,03	5,96,03	6,04,61	6,92,28
2—केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क	2.—Union Excise Duties	11,74,67	12,30,68	12,73,56	13,49,96
3—निगम-कर	3.—Corporation Tax	..	1,01,50	2,33,95	2,50,52
4—निगम-कर से भिन्न आय-सम्बन्धी कर	4.—Taxes on Income other than Corporation Tax	10,67,54	9,39,67	9,35,72	10,01,96
5—मृत-सम्पत्ति-शुल्क	5.—Estate Duty	..	15,49	13,70	14,93
6—सम्पत्ति-कर	6.—Taxes on Wealth	..	45,36	23,58	24,85
7—व्यय-कर	7.—Expenditure Tax	..	33	17	18
8—दान-कर	8.—Gift Tax	..	4,54	2,83	3,48
9—भू-राजस्व	9.—Land Revenue	8,39	11,89	12,98	19,36
10—राज्य उत्पादन-शुल्क	10.—State Excise Duties	4,45	4,12	4,43	4,93
11—गाड़ियों पर कर	11.—Taxes on Vehicles	5,94	7,44	7,30	7,84
12—बिक्री कर	12.—Sales Tax	24,15	32,90	30,57	43,75
13—अन्य कर और शुल्क	13.—Other Taxes and Duties	29,10]	36,74	39,82	37,02
14—स्टाम्प	14.—Stamps	3,76,03	4,25,44	4,29,25	5,37,31
15—रजिस्ट्री फीस	15.—Registration Fees	1,35	1,26	1,36	1,70
तोड़—करों, शुल्कों और अन्य मुख्य राजस्वों का संग्रह	TOTAL—COLLECTION OF TAXES, DUTIES AND OTHER PRINCIPAL REVENUES	32,19,65	34,53,39	36,13,83	39,90,07
ऋण-व्यवस्था—		DEBT SERVICES—			
16—ऋण और अन्य देनदारियों पर व्याज	16.—Interest on Debt and Other Obligations	4,58,44,96	5,04,97,16	5,03,29,53	5,45,32,13
17—ऋण में कमी करने या ऋण से बचने के लिये विनियोग	17.—Appropriation for Reduction or Avoidance of Debt	5,00,00	5,00,00	5,00,00	5,00,00
जोड़—ऋण व्यवस्था	TOTAL—DEBT SERVICES	4,63,44,96	5,09,97,16	5,08,29,53	5,50,32,13
अगले ले जायी गयी रकम	Carried Over	4,95,64,61	5,44,50,55	5,44,43,36	5,90,22,20

—केन्द्रीय सरकार की प्राप्तियों और
II—ESTIMATES OF RECEIPTS AND

प्राप्तियां	RECEIPTS	(हजार रुपये में) (In thousands of Rupees)			
		वास्तविक प्राप्तियां 1966-67	बजट अनुमान 1967-68	संशोधित अनुमान 1967-68	बजट अनुमान 1968-69
		Accounts, 1966-67	Budget Estimate, 1967-68	Revised Estimate, 1967-68	Budget Estimate, 1968-69
I—भारत की समेकित निधि—जारी	I.—CONSOLIDATED FUND OF INDIA—contd.				
भारे लायी गयी रकम	Brought Forward	25,42,35.53	27,91,27.14	25,97,69.22	28,03,57.84
प्रशासनिक सेवाएं—	ADMINISTRATIVE SERVICES—				
XVII—न्याय प्रशासन	XVII.—Administration of Justice.	32,20	30,88	38,95	42,11
XVIII—जेल	XVIII.—Jails	5,08	5,44	4,94	4,94
XIX—पुलिस	XIX.—Police	72,10	60,62	81,83	74,83
XX—पूर्ति और निपटान	XX.—Supplies and Disposals	7,39,19	6,56,35	6,91,20	6,93,20
XXI—विविध विभाग	XXI.—Miscellaneous Departments	2,15,66	1,77,22	1,87,67	1,85,37
जोड़—प्रशासनिक सेवाएं	TOTAL—ADMINISTRATIVE SERVICES	10,64,23	9,30,51	10,04,59	10,00,4
सामाजिक और विकास सम्बन्धी सेवाएं—	SOCIAL AND DEVELOPMENTAL SERVICES—				
XXII—शिक्षा	XXII.—Education	94,44	87,92	99,43	97,19
XXIII—चिकित्सा	XXIII.—Medical	72,08	92,15	94,54	91,50
XXIV—लोक स्वास्थ्य	XXIV.—Public Health	38,25	31,67	34,14	34,43
XXV—कृषि	XXV.—Agriculture	1,79,74	2,63,57	2,44,77	2,45,80
XXVI—ग्राम-विकास	XXVI.—Rural Development	25	..	..	..
XXVII—पशु-पालन	XXVII.—Animal Husbandry	17,80	18,10	26,60	15,5
XXVIII—सहकारिता	XXVIII.—Co-operation	25,40	1,75	1,99	2,1
XXIX—उद्योग	XXIX.—Industries	4,11,90	2,94,00	2,85,52	2,57,10
XXX—प्रसारण	XXX.—Broadcasting	6,99,16	8,45,04	9,77,72	11,61,0
XXXI—सामुदायिक विकास प्रयोजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा और स्थानीय विकास कार्य	XXXI.—Community Development Projects, National Extension Service and Local Development Works	71,77	1,91	1,80]	1,74
XXXII—सामाजिक और विकास सम्बन्धी विविध संगठन	XXXII.—Miscellaneous, Social and Developmental Organisations	6,42,20	6,50,44	8,55,85	6,88,72
जोड़—सामाजिक और विकास सम्बन्धी सेवाएं	TOTAL—SOCIAL AND DEVELOPMENTAL SERVICES	22,52,99	22,86,55	26,22,36	25,95,2
भारे ले जायी गयी रकम	Carried Over	25,75,52,75	28,23,44,20	26,33,96,17	28,39,53,51

भुगतानोंके अनुमान —जारी

DISBURSEMENTS OF THE CENTRAL GOVERNMENT—*contd.*

भुगतान	DISBURSEMENTS	(हजार रुपयों में) (In thousands of Rupees)			
		वास्तविक भुगतान 1966-67	बजट अनुमान 1967-68	संशोधित अनुमान 1967-68	बजट अनुमान 1968-69
		Accounts, 1966-67	Budget Estimate, 1967-68	Revised Estimate, 1967-68	Budget Estimate, 1968-69
I—भारत की समेकित निधि—जारी	I.—CONSOLIDATED FUND OF INDIA—<i>contd.</i>				
आगे लायी गयी रकम	Brought Forward	4,95,64,61	5,44,50,55	5,44,43,36	5,90,22,20
प्रशासनिक सेवाएं—	ADMINISTRATIVE SERVICES —				
18—संसद्, राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों के विधानमंडल	18.—Parliament, State and Union Territory Legislatures	5,10,50	4,24,84	4,22,31	3,79,31
19—सामान्य प्रशासन	19.—General Administration	26,93,27	29,04,83	30,68,59	26,62,70
20—लेखा-परीक्षा	20.—Audit	14,54,71	15,87,30	16,32,66	17,60,17
21—न्याय प्रशासन	21.—Administration of Justice	59,42	66,36	71,04	74,39
22—जेल	22.—Jails	27,38	13,50	19,05	15,65
23—पुलिस	23.—Police	47,98,09	51,48,56	61,47,18	62,48,09
24—वैदेशिक कार्य	24.—External Affairs	18,10,08	12,44,90	12,86,64	13,03,37
25—पूर्ति और निपटान	25.—Supplies and Disposals	4,25,34	4,46,56	4,55,69	4,54,09
26—विविध विभाग	26.—Miscellaneous Departments	5,17,76	5,40,26	5,64,23	11,43,07
जोड़—प्रशासनिक सेवाएं	TOTAL—ADMINISTRATIVE SERVICES	1,22,96,55	1,23,77,11	1,36,67,39	1,40,40,84
आगे ले जायी गयी रकम	Carried Over	6,18,61,16	6,68,27,66	6,81,10,75	7,30,63,04

II—केन्द्रीय सरकार की प्राप्तियों और
II—ESTIMATES OF RECEIPTS AND

प्राप्तियां	RECEIPTS	(हजार रुपयों में) (In thousands of Rupees)			
		वास्तविक प्राप्तियां 1966-67	बजट अनुमान 1967-68	संशोधित अनुमान 1967-68	बजट अनुमान 1968-69
		Accounts, 1966-67	Budget Estimate, 1967-68	Revised Estimate, 1967-68	Budget Estimate, 1968-69
I--भारत की समेकित निधि--जारी	I--CONSOLIDATED FUND OF INDIA—contd.				
आगे लायी गयी रकम	Brought Forward	25,75,52,75	28,23,44,20	26,33,96,17	28,39,53,52
बहुप्रयोजनी नदी योजनाएं, सिंचाई और बिजली योजनाएं	MULTI-PURPOSE RIVER SCHEMES, IRRIGATION AND ELECTRICITY SCHEMES—				
XXXIII—बहुप्रयोजनी नदी योजनाएं	XXXIII.—Multi-purpose River Schemes	13,73	5,61	21,52	8,11
XXXV—सिंचाई, नौपरिवहन, तटबन्ध और जलनिर्वाह सम्बन्धी निर्माण-कार्य (अवार्णिजिक)	XXXV.—Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)	5,18	5	23	10
XXXVI—बिजली योजनाएं	XXXVI.—Electricity Schemes	10,25	9,61	67,75	1,88,55
जोड़—बहुप्रयोजनी नदी योजनाएं, सिंचाई और बिजली योजनाएं	TOTAL—MULTI-PURPOSE RIVER SCHEMES, IRRIGATION AND ELECTRICITY SCHEMES	29,16	15,27	89,50	1,96,67
आगे ले जाया गया रकम	Carried Over	25,75,81,91	28,23,59,47	26,34,85,67	28,41,50,28

भुगतानों के अनुमान—जारी

DISBURSEMENTS OF THE CENTRAL GOVERNMENT—*contd.*

भुगतान	DISBURSEMENTS	(हजार रुपयों में) (In thousands of Rupees)			
		वार्षिक भुगतान 1966-67	बजट अनुमान 1967-68	संशोधित अनुमान 1967-68	बजट अनुमान 1968-69
		Accounts, 1966-67	Budget Estimate, 1967-68	Revised Estimate, 1967-68	Budget Estimate, 1968-69
I-भारत की समेकित निधि—जारी	I.—CONSOLIDATED FUND OF INDIA—<i>contd.</i>				
आगे लायी गयी रकम	Brought Forward	6,18,61,16	6,68,27,66	6,81,10,75	7,30,63,04
सामाजिक और विकास सम्बन्धी सेवाएं—	SOCIAL AND DEVELOPMENTAL SERVICES—				
27—वैज्ञानिक विभाग	27.—Scientific Departments	41,59,52	56,34,12	53,53,46	60,47,92
28—शिक्षा	28.—Education	54,77,67	63,05,24	63,64,08	71,41,72
29—चिकित्सा	29.—Medical	11,12,61	13,01,57	12,53,62	14,29,82
30—लोक-स्वास्थ्य	30.—Public Health	6,34,91	8,71,53	7,56,50	11,44,04
31—कृषि	31.—Agriculture	13,87,84	27,21,87	17,79,43	21,53,92
32—ग्राम-विकास	32.—Rural Development	16	1,05	46	42
33—पशुपालन	33.—Animal Husbandry	1,37,12	1,87,63	1,58,51	2,06,25
34—सहकारिता	34.—Co-operation	2,25,33	5,13,46	5,07,70	2,32,50
35—उद्योग	35.—Industries	28,03,64	28,21,60	29,07,45	30,19,70
36—प्रसारण	36.—Broadcasting	7,45,73	7,39,29	8,30,23	9,18,80
37—सामुदायिक विकास प्रायोजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा और स्थानीय विकास कार्य	37.—Community Development Projects, National Extension Ser- vice and Local Development Works.	76,39	46,74	42,17	43,27
38—श्रम और नियोजन	38.—Labour and Employment	8,77,51	10,25,22	9,95,48	10,53,46
39—सामाजिक और विकास-सम्बन्धी विविध संगठन	39.—Miscellaneous Social and Deve- lopmental Organisations	16,68,17	18,28,89	18,28,75	18,21,95
40—राजस्व से किया जाने वाला औद्योगिक विकास सम्बन्धी पूंजी परिव्यय	40.—Capital Outlay on Industrial Development met from Revenue	1,97	2,21	2,02	1,60
41—राजस्व खाते के अन्तर्गत प्रसारण सम्बन्धी पूंजी परिव्यय	41.—Capital Outlay on Broadcasting within the Revenue Account	1,05	1,41	2,61	1,86
जोड़—सामाजिक और विकास सम्बन्धी सेवाएं	TOTAL—SOCIAL AND DEVELOPMENTAL SERVICES	1,93,09,62	2,40,01,83	2,27,82,47	2,52,17,29
आगे ले जायी गयी रकम	Carried Over	8,11,70,78	9,08,29,49	9,08,93,22	9,82,80,27

II—केन्द्रीय सरकार की प्राप्तियों और II—ESTIMATES OF RECEIPTS AND

(हजार रुपये में)

(In thousands of Rupees)

प्राप्तियाँ	RECEIPTS	वास्तविक	बजट	संशोधित	बजट
		प्राप्तियाँ 1966-67	अनुमान 1967-68	अनुमान 1967-68	अनुमान 1968-69
		Accounts, 1966-67	Budget Estimate, 1967-68	Revised Estimate, 1967-68	Budget Estimate, 1968-69
I.—भारत की समेकित निधि—जारी		I.—CONSOLIDATED FUND OF INDIA—contd.			
आगे लायी गयी रकम	Brought Forward	25,75,81,91	28,23,59,47	26,34,85,67	28,41,50,28
लोक निर्माण-कार्य (सड़कों सहित) और लोक निर्माण सम्बन्धी विविध सुधारों की योजनाएं—	PUBLIC WORKS (INCLUDING ROADS) AND SCHEMES OF MISCELLANEOUS PUBLIC IMPROVEMENTS—				
XXXVII—लोक निर्माण-कार्य	XXXVII.—Public Works	5,62,44	4,59,79	5,44,10	5,86,57
परिवहन और संचार (सड़कों से भिन्न)	TRANSPORT AND COMMUNICATIONS (OTHER THAN ROADS)—				
XXXIX—बन्दरगाह और नौबालन	XXXIX.—Ports and Pilotage	52,31	1,75,00	79,64	48,15
XL—व्यापारिक समुद्री बेड़ा	XL.—Mercantile Marine	13,64	15,40	16,19	15,60
XLI—प्रकाशस्तम्भ और प्रकाशपोत	XLI.—Lighthouses and Lightships	1,50,33	1,34,03	1,33,92	1,39,68
XLII—उड्डयन	XLII.—Aviation	3,32,57	3,19,05	4,03,80	4,48,29
XLIII—सड़क और जल परिवहन योजनाएं	XLIII.—Road and Water Transport Schemes	13,16	26,20	28,01	29,58
XLIV—पुनर्विदेशीय संचार सेवा	XLIV.—Overseas Communications Service	3,51,47	4,25,55	4,50,45	4,56,17
आङ्ग—परिवहन और संचार (सड़कों से भिन्न)	TOTAL—TRANSPORT AND COMMUNICATIONS (OTHER THAN ROADS)	9,13,48	10,95,23	11,12,01	11,37,47
आगे लायी गयी रकम	Carried Over	25,90,57,83	28,39,14,49	26,51,41,78	28,58,74,32

भुगतानों के अनुमान—गरी

DISBURSEMENTS OF THE CENTRAL GOVERNMENT—contd.

भुगतान	DISBURSEMENTS	(हजार पयों में) (In thousands of Rupees)			
		वास्तविक भुगतान 1966-67 Accounts, 1966-67	बजट अनुमान 1967-68 Budget Estimate, 1967-68	संशोधित अनुमान 1967-68 Revised Estimate, 1967-68	बजट अनुमान 1968-69 Budget Estimates, 1968-69
I.—भारत की समेकित निधि—जारी	I.—CONSOLIDATED FUND OF INDIA—contd.				
आगे लायी गयी रकम	Brought Forward	8,11,70,78	9,03,29,49	9,08,93,22	9,82,80,27
बहुप्रयोजनी नदी योजनाएं, सिंचाई और बिजली योजनाएं—	MULTIPURPOSE RIVER SCHEMES, IRRIGATION AND ELECTRICITY SCHEMES—				
42—बहुप्रयोजनी नदी योजनाएं	42.—Multipurpose River Schemes	1,28,96	1,44,12	1,48,01	1,74,26
44—सिंचाई, नौ-परिवहन, तटबन्ध और जल-निकासी सम्बन्धी निर्माण-कार्य (प्रवाणिज्यिक)	44. Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)	51,63	43,42	44,18	16,32
45—बिजली योजनाएं	45.—Electricity Schemes	23,70	1,28,13	2,11,44	1,64,83
जोड़—बहुप्रयोजनी नदी योजनाएं, सिंचाई और बिजली योजनाएं	TOTAL—MULTIPURPOSE RIVER SCHEMES, IRRIGATION AND ELECTRICITY SCHEMES	2,04,28	3,15,67	4,03,63	3,55,41
लोक-निर्माण-कार्य (सड़कों सहित) और लोक-निर्माण सम्बन्धी सुधारों की विविध योजनाएं—	PUBLIC WORKS (INCLUDING ROADS) AND SCHEMES OF MISCELLANEOUS PUBLIC IMPROVEMENTS—				
50—लोक-निर्माण-कार्य	50—Public Works	25,33,37	27,16,99	26,37,22	30,86,80
52—राजस्व से किये जाने वाले लोक निर्माण-कार्यों का पूजा परिव्यय	52.—Capital outlay on Public Works met from Revenue	1,17,49	1,22,07	1,34,7	1,22,04
जोड़—लोक-निर्माण कार्य	Total—Public Works	26,50,86	28,39,06	27,72,01	32,08,84
परिवहन और संचार (सड़कों से भिन्न)—	TRANSPORT AND COMMUNICATIONS (OTHER THAN ROADS)—				
53—बन्दरगाह और नौचालन	53.—Ports and Pilotage	1,23,85	1,29,62	94,26	58,75
54—व्यापारिक समुद्री बेड़ा	54.—Mercantile Marine	1,50,40	1,82,12	1,81,72	2,36,46
55—प्रकाशस्तम्भ और प्रकाशपोत	55.—Lighthouses and Lightabips	1,29,28	1,33,79	1,33,70	1,39,40
56—उड़्डयन	56.—Aviation	5,84,18	6,88,23	8,48,38	5,20,39
57—सड़क और जल परिवहन योजनाएं	57.—Road and Water Transport Schemes	27,33	45,07	46,17	51,80
58—समुद्रपारीय संचार सेवा	58—Overseas Communications Service	2,14,07	2,33,46	2,23,55	2,75,36
जोड़—परिवहन और संचार (सड़कों से भिन्न)	TOTAL—TRANSPORT AND COMMUNICATIONS (OTHER THAN ROADS)	12,29,11	14,12,31	15,27,78	12,82,16
आगे ले जायी गयी रकम	Carried Over	8,52,55,03	9,53,96,53	9,55,96,64	10,31,26,64

II—केन्द्रीय सरकार की प्राप्तियों और II—STATEMENT OF RECEIPTS AND

प्राप्तियां	RECEIPTS	(हजार रुपयों में) (In thousands of Rupees)			
		वास्तविक प्राप्तियां 1966-67	बजट अनुमान 1967-68	संशोधित अनुमान 1967-68	बजट अनुमान 1968-69
		Accounts, 1966-67	Budget Estimate, 1967-68	Revised Estimate, 1967-68	Budget Estimate, 1968-69
I-भारत की समेकित निधि-जारी	I.—CONSOLIDATED FUND OF INDIA—contd.				
आगे लायी गयी रकम	Brought Forward	25,90,57.83	28,39,14.49	26,51,41.78	28,58,74.32
मुद्रा और टंकसाख—	CURRENCY AND MINT—				
XLV—मुद्रा और सिक्का-बलाई	XLV.—Currency and Coinage	65,10.59	74,66.90	75,32.92	82,77.07
XLVI—टंकसाख	XLVI.—Mint	57.98	56.60	92.58	97.24
XLVIक—कोलार की सोने की खानें	XLVI.-A—Kolar Gold Mines	2,61.50	2,78.63	2,29.13	2,30.69
जोड़—मुद्रा और टंकसाख—	TOTAL—CURRENCY AND MINT	68,30.07	78,02.13	78,54.63	86,05.00
विविध—	MISCELLANEOUS—				
XLVIII—पेंशनों और अन्य सेवा-निवृत्ति लाभों के लिए अंशदान और वसूलियां	XLVIII.—Contributions and Recoveries towards Pensions and Other Retirement benefits	1,08.97	1,38.05	1,07.05	1,07.00
XLIX—लेखन-सामग्री और छपाई	XLIX.—Stationery and Printing	94.43	1,53.24	1,08.12	1,04.43
L—अफीम	L.—Opium	5,02.60	5,25.00	5,15.00	5,25.00
LI—वन	LI.—Forest	2,03.09	2,54.85	2,56.14	2,60.38
LII—विविध	LII.—Miscellaneous	16,24.88	10,70.82	17,54.52	12,52.62
जोड़—विविध	TOTAL—MISCELLANEOUS	25,33.97	21,41.96	27,40.83	22,49.43
अंशदान और विविध समायोजन	CONTRIBUTIONS AND MISCELLANEOUS ADJUSTMENTS—				
LIII—रेलों का अंशदान	LIII.—Contributions from Railways	30,75.78	30,98.06	29,70.12	30,52.01
LIV—डाक और तार का अंशदान	LIV.—Contributions from Posts and Telegraphs	..	4,06.18	6,41.32	3,11.97
LVII—केन्द्रीय सरकार तथा राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों की सरकारों के बीच विविध समायोजन	LVII.—Miscellaneous Adjustments between Central, State and Union Territory Governments	..	..	..	..
LVIII—वाणिज्यिक और अन्य-मस्तिष्कानों से लाभान्वित आदि	LVIII.—Dividends etc. from Commercial and other Undertakings	7,85.75	6,46.71	10,70.30	10,83.13
LIX—अन्य विविध अंशदान और आवरण (असाइनमेंट)	LIX.—Other Miscellaneous Contributions and Assignments	..	..	..	..
जोड़—अंशदान और विविध समायोजन	TOTAL—CONTRIBUTIONS AND MISCELLANEOUS ADJUSTMENTS	38,61.53	41,50.95	46,81.74	44,47.11
आगे ले जायी गयी रकम	Carried Over	27,22,83.40	29,80,09.53	28,04,18.98	30,11,75.86

भुगतानों के अनुमान—जारी

DISBURSEMENTS OF THE CENTRAL GOVERNMENT—contd.

भुगतान	DIBURSEMENTS	(हजार रुपयों में) (In thousands of Rupees)			
		वास्तविक भुगतान 1966-67	बजट अनुमान 1967-68	संशोधित अनुमान 1967-68	बजट अनुमान 1968-69
		Accounts, 1966-67	Budget Estimate, 1967-68	Revised Estimate, 1967-68	Budget Estimate, 1968-69
I.—भारत की समेकित निधि—जारी	I.—CONSOLIDATED FUND OF INDIA—contd.				
भाने लायी गयी रकम	Brought Forward	8,52,55,03	9,53,96,53	9,55,96,64	10,31,26,68
मुद्रा और टकसाल—	CURRENCY AND MINT—				
62—मुद्रा और सिक्का-टलाई	62.—Currency and Coinage	12,31,77	12,99,02	14,37,92	15,04,28
63—टकसाल	63.—Mint	3,15,01	3,45,07	3,74,99	3,95,12
63-क—कोलार की सोने की खानें	63-A.—Kolar Gold Mines	4,74,93	5,00,71	5,29,69	5,45,62
जोड़—मुद्रा और टकसाल	TOTAL—CURRENCY AND MINT	20,21,71	21,44,80	23,42,60	24,45,02
विविध—	MISCELLANEOUS—				
64—बुध्ति सहायता	64.—Famine Relief	1,79	51	15,02	52
65—पेंशनें और अन्य सेवा-निवृत्ति लाभ	65.—Pensions and other retirement benefits	5,83,85	5,97,49	6,60,95	6,47,27
66—प्रादेशिक और राजनीतिक पेंशनें	66.—Territorial and Political Pensions	18,30	18,96	18,75	18,76
67—भारतीय राजाओं की निजी बैलियाँ और भत्ते	67.—Privy Purses and Allowances of Indian Rulers	5,07,96	5,05,75	4,83,44	4,82,95
68—लेखन-सामग्री और ठपार्ड	68.—Stationery and Printing	4,26,24	5,61,47	4,49,90	5,24,62
69—अफीम	69.—Opium	2,31,50	2,63,86	2,40,64	3,35,07
70—वन	70.—Forest	3,37,25	3,58,75	3,61,38	3,84,39
71—विविध	71.—Miscellaneous	1,54,00,70	1,44,10,72	1,49,33,04	1,58,43,47
जोड़—विविध	TOTAL—MISCELLANEOUS	1,75,07,59	1,67,17,51	1,71,63,12	1,82,37,05
ग्रंशदान और विविध समायोजन—	CONTRIBUTIONS AND MISCELLANEOUS ADJUSTMENTS—				
73—केन्द्रीय उत्पादन-शुल्कों में से राज्यों के हिस्से की प्रदायगी	73.—Payments of States' share of Union Excise Duties	2,30,91,26	2,31,57,33	2,34,63,81	2,67,52,83
74—राज्यों और संघीय राज्य-क्षेत्रों की सरकारों को सहायक अनुदान	74.—Grants-in-aid to State and Union Territory Governments	4,05,79,65	4,52,75,06	4,67,34,76	4,78,27,57
75—केन्द्रीय तथा राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों की सरकारों के बीच विविध समायोजन	75.—Miscellaneous Adjustments between Central, State and Union Territory Governments	19,54	34,72	34,22	28,20
76—अन्य विविध ग्रंशदान और समर्पण (असाइनमेंट)	76.—Other Miscellaneous Contributions and Assignments	5,68,01	5,82,05	6,00,29	6,28,07
जोड़—ग्रंशदान और विविध समायोजन	TOTAL—CONTRIBUTIONS AND MISCELLANEOUS ADJUSTMENTS	6,42,58,46	6,90,49,16	7,08,33,08	7,52,36,67
बाये से आयी गयी रकम	Carried Over	16,90,42,79	18,33,08,00	18,59,35,44	19,90,45,42

II—केन्द्रीय सरकार की प्राप्तियों और II—ESTIMATES OF RECEIPTS AND

(हजार रुपयों में)

RECEIPTS

(In thousands of Rupees)

प्राप्तियां	वास्तविक प्राप्तियां 1966-67	बजट अनुमान 1967-68	संशोधित अनुमान 1967-68	बजट अनुमान 1968-69	
	Accounts, 1966-67	Budget Estimate, 1967-68	Revised Estimate, 1967-68	Budget Estimate, 1968-69	
I—भारत की समेकित निधि—जारी	I.—CONSOLIDATED FUND OF INDIA— <i>contd.</i>				
आगे लायी गयी रकम	Brought Forward	27,22,83,40	29,80,09,53	28,04,18,98	30,11,75,86
असाधारण मदें—	EXTRAORDINARY ITEMS—				
LX—असाधारण प्राप्तियां	LX.—EXTRAORDINARY RECEIPTS	5,49,61	6,37,53	6,25,86	13,00,02
LXI—विभाजन-पूर्व की प्राप्तियां	LXI.—Prepartition Receipts	5			
XI-क—राष्ट्रीय संकट से सम्बद्ध प्राप्तियां	LXI-A.—Receipts connected with the National Emergency	2,72,78	3,10,00	2,08,98	2,54,00
जोड़—असाधारण मदें	TOTAL—EXTRAORDINARY ITEMS	8,22,39	9,47,53	8,34,84	15,54,02
रक्षा सेवाएं—	DEFENCE SERVICES—				
LXII—रक्षा सेवाएं—सक्रिय	LXII.—Defence Services—Effective	41,86,17	35,80,55	41,90,37	40,48,00
LXIII—रक्षा सेवाएं—निष्क्रिय	LXIII.—Defence Services—Non-effective	1,16,65	89,77	1,19,46	1,01,00
जोड़—रक्षा सेवाएं	TOTAL—DEFENCE SERVICES	43,02,82	36,70,32	43,09,83	41,49,00
डाक और तार—	POSTS AND TELEGRAPHS				
LXIX—डाक और तार	LXIX.—Posts and Telegraphs	1,59,34,39	1,82,62,00	1,72,70,00	2,12,67,00
रेल—	RAILWAYS—				
रेल बजट के अनुसार रेलों का राजस्व	Railway Revenue as per Railway Budget	7,69,00,22	8,47,52,25	8,29,87,21	8,92,69,21*
जोड़—राजस्व प्राप्तियां	TOTAL—REVENUE RECEIPTS—	37,02,43,22	40,56,41,63	38,58,20,86	41,74,15,09
आगे ले जायी गयी रकम (पृष्ठ 26 देखिए)	Carried over (See page 26)				
राजस्व से व्यय की अधिकता अर्थात् कमी	Excess of Expenditure over Revenue or Deficit	..	..	..	..

*Excludes the effect of concession announced in Parliament during the discussion on the Railway Budget

*रेलवे बजट पर बहस के समय संसद में घोषित रियायत के प्रभाव को छोड़कर

भुगतानों के अनुमान—जारी

DISBURSEMENT OF THE CENTRAL GOVERNMENT—contd.

(हजार रुपये में)

भुगतान DISBURSEMENTS

(In thousands of Rupees)

	वास्तविक भुगतान 1966-67	बजट अनुमान 1967-68	संशोधित अनुमान 1967-68	बजट अनुमान 1968-69
	Accounts, 1966-67	Budget Estimate, 1967-68	Revised Estimate, 1967-68	Budget Estimate, 1968-69
I—भारत की समेकित निधि—	I—CONSOLIDATED FUND OF INDIA—contd.			
जारी				
प्रागे लायी गयी रकम	Brought Forward	16,90,42,79	18,33,08,00	18,59,35,44
असाधारण मदें—	EXTRAORDINARY ITEMS—			
77—असाधारण व्यय	77.—Extraordinary Charges	3,59,92	4,18,69	4,18,76
78—विभाजन-पूर्व की अदायगियां	78.—Pre-partition Payments	7,13	13,27	10,41
78-क-राष्ट्रीय संकट से सम्बन्ध व्यय	78-A.—Expenditure connected with the National Emergency	10,39,98	6,16,22	4,98,49
जोड़—असाधारण मदें—	TOTAL—EXTRAORDINARY ITEMS	14,07,03	10,48,18	9,27,66
रक्षा सेवाएं—	DEFENCE SERVICES—			
79—रक्षा सेवाएं—सक्रिय-स्थल-सेना	79.—Defence Services—Effective—			
नौ-सेना	Army	6,31,93,22	6,54,24,30	6,74,21,84
वायु-सेना	Navy	34,64,25	38,91,50	38,90,50
रक्षा—उत्पादन	Air Force	1,49,68,26	1,60,54,00	1,60,54,00
	Defence Production	..	..	..
82—रक्षा सेवाएं—निष्क्रिय	82.—Defence Services—Non-effective	24,56,80	25,50,00	26,25,02
जोड़—रक्षा सेवाएं	TOTAL—DEFENCE SERVICES	8,40,82,53	8,79,19,80	8,99,91,36
डाक और तार—	POSTS AND TELEGRAPHS			
90—डाक और तार—	90.—Posts & Telegraphs			
कार्यवाहन व्यय	Working Expenses	1,49,98,30	1,62,81,12	1,74,95,58
साधारण राजस्व में लाभांश	Dividend to General Revenues	9,36,09	15,78,29	18,35,03
डाक और तार विभाग के अधिशेष से	Appropriation from P. & T. Surplus	..	4,02,59	..
विनियोग	Repayment of loan from General Revenues	..	..	..
समान्य राजस्व से लिये गये ऋणों की वापसी	Deduct—Amount met from P & T Revenue Reserve Fund	..	..	..
घटाइये—डाक और तार राजस्व प्रारक्षित निधि से किया जाने वाला व्यय			—20,60,61	—7,75,27
जोड़—डाक और तार	TOTAL—POSTS AND TELEGRAPHS	1,59,34,39	1,82,62,00	1,72,70,00
रेल्वे—रेलवे बजट के अनुसार रेलों का व्यय	RAILWAYS—Railway Expenditure as per Railway Budget	7,59,00,22	8,47,52,25	8,29,87,21
जोड़—राजस्व से व्यय	TOTAL—EXPENDITURE MET FROM REVENUE	34,73,66,96	37,52,90,23	37,71,11,67
प्रागे ले जायी गयी रकम (पृष्ठ 27 देखिये)	—CARRIED OVER (SEE PAGE 27)	..	..	..
व्यय से राजस्व की अधिकता अथवा अधिशेष	EXCESS OF REVENUE OVER EXPENDITURE OR SURPLUS	2,28,76,26	3,03,51,40	87,09,19

Excludes the effect of concession announced in Parliament during the discussion on the Railway Budget.

रेलवे बजट पर बहस के समयसमय में जोड़िये रियायत के प्रभाव को जोड़ कर ।

II—केन्द्रीय सरकार की प्राप्तियों और भुगतानों के अनुमान—जारी

II—ESTIMATES OF RECEIPTS AND DISBURSEMENTS OF THE CENTRAL GOVERNMENT—contd.

भुगतान

DISBURSEMENTS

(हजार रुपयों में)

(In thousands of Rupees)

	वास्तविक भुगतान 1966-67	बजट अनुमान 1967-68	संशोधित अनुमान 1967-68	बजट अनुमान 1968-69
	Accounts, 1966-67	Budget Estimate, 1967-68	Revised Estimate, 1967-68	Budget Estimate, 1968-69
I—भारत की समेकित निधि—जारी	I.—CONSOLIDATED FUND OF INDIA—contd.			
राजस्व खाते से बाहर का पूंजी खाता— सामाजिक और विकास सम्बन्धी सेवाएं—	CAPITAL ACCOUNT OUTSIDE THE REVENUE ACCOUNT— SOCIAL AND DEVELOPMENTAL SERVICES—			
94—लोक-स्वास्थ्य का सुधार .	94.—Improvement of Public Health .	7,60	10,00	10,00
95—कृषि सम्बन्धी सुधार और गवेषणा .	95.—Agricultural Improvement and Research .	56,10	6,71,54	1,35,94
96—औद्योगिक और आर्थिक विकास .	96.—Industrial and Economic Development .	1,94,20,96	2,13,18,00	1,95,16,13
97—प्रसारण .	97.—Broadcasting .	1,35,98	2,27,66	4,07,55
जोड़—सामाजिक और विकास सम्बन्धी सेवाएं .	TOTAL—SOCIAL AND DEVELOPMENTAL SERVICES .	1,96,20,64	2,22,27,20	2,00,69,62
बहुप्रयोजनी नदी योजनाएं, सिंचाई और बिजली योजनाएं—	MULTI-PURPOSE RIVER SCHEMES, IRRIGATION AND ELECTRICITY SCHEMES—			
98—बहुप्रयोजनी नदी-योजनाएं .	98.—Multi-purpose River Schemes .	16,34,63	19,50,18	17,51,29
100—सिंचाई, नौपरिवहन, तटबन्ध और जल-निकासी सम्बन्धी निर्माण-कार्य (अवाणिज्यिक) .	100.—Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial) .	29,97	1,00,09	85,71
101—बिजली योजनाएं .	101.—Electricity Schemes .	52,72	4,31,05	2,90,04
जोड़—बहुप्रयोजनी नदी योजनाएं, सिंचाई और बिजली योजनाएं .	TOTAL—MULTI-PURPOSE RIVER SCHEMES IRRIGATION AND ELECTRICITY SCHEMES .	17,17,32	24,81,32	21,27,04
लोक-निर्माण कार्य (सड़कों सहित) और लोक निर्माण सम्बन्धी सुधारों की विविध योजनाएं	PUBLIC WORKS (INCLUDING ROADS) AND SCHEMES OF MISCELLANEOUS PUBLIC IMPROVEMENTS—			
103—लोक-निर्माण-कार्य .	103.—Public Works .	50,98,08	44,03,27	47,52,60
104—दिल्ली पूंजी परिव्यय .	104.—Delhi Capital Outlay .	5,08,00	8,54,00	8,51,19
105—चण्डीगढ़ पूंजी परिव्यय .	105.—Chandigarh Capital outlay .	58,13	65,00	86,19
108—दण्डकारण्य विकास योजनाएं .	108.—Dandakaranya Development Schemes .	2,90,33	3,50,00	3,50,00
108A—कांडला आवाध व्यापार क्षेत्र पर पूंजी परिव्यय .	108A.—Capital Outlay on Free Trade Zone, Kandla .	23,94	7,29	13,00
109—अन्य निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय .	109.—Capital Outlay on Other Works .	—1,62,01	5,33,40	5,09,37
जोड़—लोक निर्माण-कार्य (सड़कों सहित) और लोक-निर्माण सम्बन्धी सुधारों की विविध योजनाएं .	TOTAL—PUBLIC WORKS (INCLUDING ROADS) AND SCHEMES OF MISCELLANEOUS PUBLIC IMPROVEMENTS .	58,16,47	62,12,97	65,62,35
आगे ले जायी गयी रकम .	Carried Over .	2,71,54,43	3,09,21,49	2,87,59,01
				3,30,10,30

II केंद्रीय सरकार की प्राप्तियों और भुगतानों के अनुमान—जारी

II—ESTIMATES OF RECEIPTS AND DISBURSEMENTS OF THE CENTRAL GOVERNMENT—*contd.*

भुगतान	DISBURSEMENTS	(हजार रुपये में) (In thousands of Rupees)			
		वास्तविक भुगतान 1966-67	बजट अनुमान 1967-68	संशोधित अनुमान 1967-68	बजट अनुमान 1968-69
		Accounts, 1966-67	Budget Estimate, 1967-68	Revised Estimate, 1967-68	Budget Estimate, 1968-69
I—भारत की समेकित निधि—जारी	I.—CONSOLIDATED FUND OF INDIA—<i>Contd.</i>				
आगे लायी गयी रकम	Brought Forward	2,71,54,43	3,09,21,49	2,87,59,01	3,30,10,30
परिवहन और संचार (सड़कों से भिन्न)—	TRANSPORT AND COMMUNICATIONS (OTHER THAN ROADS)—				
110—बन्दरगाह	110.—Ports	5,01,78	2,92,20	2,76,15	3,18,00
111—प्रकाश-स्तम्भ और प्रकाश-पोत	111.—Lighthouses and Lightships	..	..	..	..
112—विमानन	112.—Aviation	3,99,99	4,97,67	4,81,14	8,10,56
113—रेल-सड़क समन्वय योजनाओं पर पूँजी परिव्यय	113.—Capital Outlay on Rail-Road Coordination Schemes	..	..	..	..
114—सड़क और जल परिवहन योजनाएं	114.—Road and Water Transport Schemes	3,92	..	..	3,14
115—समुद्रपारीय संचार सेवा	115.—Overseas Communications Service	32,29	1,16,93	26,44	4,38,48
116—जहाजों, तेलवाहक जहाजों आदि पर पूँजी परिव्यय	116.—Capital Outlay on Shipping Tankers, etc.	62,62	78,19	78,61	59,07
जोड़—परिवहन और संचार (सड़कों से भिन्न)	TOTAL—TRANSPORT AND COMMUNICATIONS (OTHER THAN ROADS)	10,00,60	9,84,99	8,62,34	16,29,25
मुद्रा और टकसाल—	CURRENCY AND MINT—				
117—मुद्रा और सिक्का-उत्सर्ग	117.—Currency and Coinage	2,18,01,87	18,98,06	14,75,58	12,46,04
118—टकसाल	118.—Mint	15,76	42,63	20,57	78,87
118क—कोलार की सोने की खानों पर पूँजी परिव्यय	118A.—Capital Outlay on Kolar Gold Mines	28,67	55,55	60,98	80,17
जोड़—मुद्रा और टकसाल	TOTAL—CURRENCY AND MINT	2,18,46,30	19,96,24	15,57,13	14,05,08
विविध—	MISCELLANEOUS—				
93—सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस	93.—Security Printing Press	14,87	22,99	11,16	47,24
119—वन	119.—Forests	88	22,70	2,70	22,15
120—पेंशनों के राशीकृत मूल्य की भुगतानी	120.—Payments of Commuted value of Pensions	2,08,11	2,66,64	3,31,88	3,79,34
121—स्टर्लिंग पेंशनों पर पूँजी परिव्यय	121.—Capital Outlay on Sterling Pensions	—3,67,75	—3,88,73	—3,88,73	—3,92,62
124—सरकारी व्यापार की योजनाएं	124.—Schemes of Government Trading	1,01,92,77	96,78,05	91,25,38	78,73,78
आगे ले जायी गयी रकम	Carried Over	1,00,48,88	96,01,65	90,82,39	79,29,89
आगे ले जायी गयी रकम	Carried Over	5,00,01,33	3,39,02,72	3,11,78,48	3,60,44,63

II केन्द्रीय सरकार की प्राप्तियों

II—ESTIMATES OF RECEIPTS AND

प्राप्तियाँ	RECEIPTS	(हजार रुपये में) (In thousands of Rupees)			
		वास्तविक प्राप्तियाँ	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	बजट अनुमान
		1966-67	1967-68	1967-68	1968-69
		Accounts, 1966-67	Budget Estimate, 1967-68	Revised Estimate, 1967-68	Budget Estimate, 1968-69

I—भारत की समेकित निधि—जारी I—CONSOLIDATED FUND OF INDIA—contd.

राजस्व खाते से बाहर का पूँजी खाता— LXX अमरीकी और उधार पट्टे सम्बन्धी अधिशेष वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त रकम	Capital Accounts outside Revenue Account—LXX.—Sale Proceeds of American and Lease-Lend Surpluses	..	..	..	..
जोड़—राजस्व खाते से बाहर का पूँजी खाता भाग ले जायी गयी रकम	Total—Capital Accounts outside the Revenue Account—Carried over.	..	..	..	..

घरि. भुगतानों के अनुमान—जारी
DISBURSEMENTS OF THE CENTRAL GOVERNMENT—*contd.*

भुगतान	DISBURSEMENTS	(हजार रुपयों में) (In thousands of Rupees)			
		वास्तविक भुगतान 1966-67	बजट अनुमान 1967-68	संशोधित अनुमान 1967-68	बजट अनुमान 1968-69
		Accounts, 1966-67	Budget Estimate, 1967-68	Revised Estimate, 1967-68	Budget Estimate, 1968-69
I.—भारत की समेकित निधि—जारी	I.—CONSOLIDATED FUND OF INDIA— <i>contd.</i>				
आगे लायी गयी रकम	Brought Forward	5,00,01,33	3,39,02,72	3,11,78,48	3,60,44,63
आगे लायी गयी रकम	Brought Forward—	1,00,48,88	96,01,63	90,82,39	79,29,89
126—विकास अनुदान	126.—Grants for Development	41,03,92	30,91,94	38,99,70	27,23,32
127—विस्थापित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति और पुनर्वास अनुदान	127.—Compensation and Rehabilitation Grants to Displaced Persons	—6,64,05	—5,59,17	—7,92,89	—5,89,76
128—अमरीकी सरकार से मिलने वाली विकास सहायता का अन्तरण.	128.—Transfer of Development Assistance from the Government of U.S.A.	3,50,00,00	1,50,00,05	1,50,00,05	..
129—सिंधु नदी जल सन्धि के अनुसार अन्नायुक्तियों पर पूंजी परिव्यय.	129.—Capital Outlay on Payments under Indus Water Treaty	9,78,43	8,90,14	8,91,10	6,13,94
जोड़—विविध	TOTAL—MISCELLANEOUS	4,94,67,18	2,80,24,61	2,80,80,35	1,06,77,39
रक्षा सम्बन्धी पूंजी परिव्यय—	DEFENCE CAPITAL OUTLAY—				
130—रक्षा सम्बन्धी पूंजी परिव्यय	130.—Defence Capital Outlay	1,10,79,48	1,20,87,55	1,13,32,26	1,20,80,00
131/132—रेल पूंजी (जो रेलवे बजट में दिखाई गयी है)	131/132.—RAILWAY CAPITAL (AS SHOWN IN THE RAILWAY BUDGET)	1,60,70,29	1,61,75,00	1,50,00,00	1,43,00,00
134—डाक और तार	134.—POSTS AND TELEGRAPHS	29,76,74	31,68,00	30,92,00	30,45,54
जोड़—राजस्व खाते से बाहर का पूंजी खाता	TOTAL—CAPITAL ACCOUNTS OUTSIDE THE REVENUE ACCOUNT Carried over	12,95,95,02	9,33,57,88	8,86,83,09	7,61,47,56
आगे ले जायी गयी रकम	Carried over	12,95,95,02	9,33,57,88	8,86,83,09	7,61,47,56

II—केन्द्रीय सरकार की प्राप्तियों और

II—ESTIMATES OF RECEIPTS AND

(हजार रुपयों में)

(In thousands of Rupees)

प्राप्तियां

RECEIPTS

	वास्तविक प्राप्तियां 1966-67	बजट अनुमान 1967-68	संशोधित अनुमान 1967-68	बजट अनुमान 1968-69
	Accounts, 1966-67	Budget Estimate, 1967-68	Revised Estimate, 1967-68	Budget Estimate 1968-69
I—भारत की समेकित निधि—जारी				
भरने लायी गयी रकम				
सरकारी ऋण—				
क—भारत में लिया जाने वाला ऋण				
स्थायी ऋण				
बजार ऋण				
स्वर्ण बांड				
इनामी बांड				
शहिकी पत्र				
जोड़—स्थायी ऋण				
II—अस्थायी ऋण—				
राजकोष ऋणियां				
अन्य मदें				
जोड़—अस्थायी ऋण				
ख—भारत से बाहर लिया जाने वाला ऋण				
जोड़—सरकारी ऋण				
जोड़—केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जाने वाले ऋण और अग्रिम—				
राज्यों और संघीय राज्य-क्षेत्रों की सरकार को दिये जाने वाले अग्रिम				
अन्य ऋण और अग्रिम				
जोड़—केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जाने वाले ऋण और अग्रिम				
अन्तराष्ट्रीय निपटारा				
जोड़—राजस्व-प्राप्तियां—पृष्ठ 20 से आगे लायी गयी रकम				
जोड़—I—भारत की समेकित निधि—प्राप्तियां				
I.—CONSOLIDATED FUND OF INDIA—contd.				
Brought Forward	..	..	..	..
PUBLIC DEBT—				
A.—Debt raised in India—				
I.—PERMANENT DEBT—				
Market Loans	3,25,30,35	3,50,00,00	4,25,43,25	3,00,00,00
Gold Bonds	3,24,50	1,30,00	1,50,00	50,00
Prize Bonds	6	..	..	..
Annuity Certificates	17,06	40,00	20,00	20,00
TOTAL—PERMANENT DEBT	3,28,71,97	3,51,70,00	4,27,13,25	3,00,70,00
II.—FLOATING DEBT—				
Treasury Bills	78,63,17,95	81,20,00,00	82,90,60,00	92,90,00,00
Other Items	3,49,59,35	3,48,75	3,48,75	3,48,75
TOTAL—FLOATING DEBT	82,12,77,30	81,23,48,75	82,94,08,75	92,93,48,75
B.—Debt raised outside India	8,66,04,82	10,15,00,00	10,15,01,77	10,19,00,00
TOTAL—PUBLIC DEBT	94,07,54,09	94,90,18,75	97,36,23,77	1,06,13,18,75
LOANS AND ADVANCES BY THE CENTRAL GOVERNMENT—				
Advances to State and Union Territory Governments	2,81,29,56	3,43,00,00	3,85,00,00	4,25,00,00
Other Loans and Advances	1,37,25,47	87,00,00	1,08,00,00	1,24,00,00
TOTAL—LOANS AND ADVANCES BY THE CENTRAL GOVERNMENT	4,18,55,03	4,30,00,00	4,93,00,00	5,49,00,00
INTER-STATE SETTLEMENT	..	..	..	..
Total—Revenue Receipts—Brought Forward (From page 20)	37,02,43,22	40,56,41,63	38,58,20,86	41,74,15,09
TOTAL—I.—CONSOLIDATED FUND OF INDIA—RECEIPTS	1,35,28,52,34	1,39,76,60,38	1,40,87,44,63	1,53,36,33,84

भुगतानों के अनुमान—जारी

DISBURSEMENTS OF THE CENTRAL GOVERNMENT—*contd.*

(हजार रुपये में)

(In thousands of Rupees)

भुगतान	DISBURSEMENTS	यास्तबिक भुगतान 1966-67 Accounts, 1966-67	बजट अनुमान 1967-68 Budget Estimate, 1967-68	संशोधित अनुमान 1967-68 Revised Estimate, 1967-68	अजट अनुमान 1968-69 Budget Estimate, 1968-69
I. भारत की समेकित निधि—जारी	I.—CONSOLIDATED FUND OF INDIA— <i>contd.</i>				
भाग लायी गयी रकम	Brought Forward	12,95,95,02	9,33,57,88	8,86,83,09	7,61,47,56
सरकारी ऋण—	PUBLIC DEBT—				
क—भारत में लिया जाने वाला ऋण—	A.—Debt raised in India—				
I—स्थायी ऋण—	I—PERMANENT DEBT—				
बाजार ऋण	Market Loans	1,82,79,03	2,55,00,00	2,57,30,00	2,39,00,00
इनामी बांड	Prize Bonds	3	3,00,00	2,00,00	5,00,00
वार्षिकी—पत्र	Annuity Certificates	25,34	50,00	40,00	40,00
जोड़—स्थायी ऋण—	TOTAL—PERMANENT DEBT	1,83,04,40	2,58,50,00	2,59,70,00	2,44,40,00
II—चलस्थायी ऋण	II—FLOATING DEBT—				
राजकोषीय ढुंडियाँ	Treasury Bills	75,55,45,20	81,20,00,00	81,20,60,00	90,00,00
अन्य मदें	Other Items	50,00	1,00,00	3,00,00	2,00,00
जोड़—चलस्थायी ऋण	TOTAL—FLOATING DEBT	75,55,95,20	81,21,00,00	81,23,60,00	90,02,00,00
ख—भारत से बाहर लिया जाने वाला ऋण	B.—Debt raised outside India	1,62,07,59	1,95,43,69	1,84,93,00	1,94,47,44
जोड़—सरकारी ऋण	TOTAL—PUBLIC DEBT	79,01,07,19	85,74,93,69	85,68,23,00	94,40,87,44
केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जाने वाले ऋण और प्रग्रिम—	LOANS AND ADVANCES BY THE CENTRAL GOVERNMENT—				
राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों की सरकारों को दिये जाने वाले प्रग्रिम	Advances to State and Union Territory Governments	9,30,88,81	8,40,01,72	8,85,37,09	8,55,68,17
अन्य ऋण और प्रग्रिम	Other Loans and Advances	4,76,38,71	3,93,28,05	4,92,57,67	4,60,73,66
जोड़—केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जाने वाले ऋण और प्रग्रिम	TOTAL—LOANS AND ADVANCES BY THE CENTRAL GOVERNMENT	14,07,27,52	12,33,29,77	13,77,94,76	13,16,41,83
अन्तराज्यीय निपटारा	INTER-STATE SETTLEMENT	..	4,50	63	83
जोड़—राजस्व से व्यय (पृष्ठ 21 से आगे लायी गयी रकम)	TOTAL—EXPENDITURE MET FROM REVENUE-BROUGHT FORWARD (FROM PAGE 21)	34,73,66,96	37,52,90,23	37,71,11,67	40,43,23,37
जोड़—I—भारत की समेकित निधि—भुगतान	TOTAL—I.—CONSOLIDATED FUND OF INDIA—DISBURSEMENTS	1,40,77,96,69	1,44,94,76,07	1,46,04,13,15	1,55,62,01,03

II केन्द्रीय सरकार की प्राप्तियों और
II—ESTIMATES OF RECEIPTS AND
(हजार रुपयों में)
(In thousands of Rupees)

प्राप्तियाँ	RECEIPTS	वास्तविक प्राप्तियाँ 1966-67	बजट अनुमान 1967-68	संशोधित अनुमान 1967-68	बजट अनुमान 1968-69
		Accounts, 1966-67	Budget Estimate, 1967-68	Revised Estimate, 1967-68	Budget Estimate, 1968-69

II—भारत की आकस्मिकता निधि— II—CONTINGENCY FUND OF INDIA—

भारत की आकस्मिकता निधि— CONTINGENCY FUND OF INDIA—

समेकित निधि या अन्य किसी पारकित निधि से विनियोग	Appropriation from the Consolidated Fund or from any Reserve Fund	1,35,01	52,45	2,50	..
---	---	---------	-------	------	----

जोड़ —II—भारत की आकस्मिकता निधि-प्राप्तियाँ	TOTAL—II—CONTINGENCY INDIA—RECEIPTS	1,35,01	52,45	2,50	..
---	-------------------------------------	---------	-------	------	----

भुगतानों के अनुमान —जारी
DISBURSEMENTS OF THE CENTRAL GOVERNMENT—*contd.*

(हजार रुपयों में)

(In thousands of Rupees)

भुगतान	DISBURSEMENTS	वास्तविक	बजट	संशोधित	बजट
		भुगतान 1966-67	अनुमान 1967-68	अनुमान 1967-68	अनुमान 1968-69
		Accounts, 1966-67	Budget Estimate, 1967-68	Revised Estimate, 1967-68	Budget Estimate, 1968-69
II—भारत की आकस्मिकता निधि					
II—CONTINGENCY FUND OF INDIA—					
भारत की आकस्मिकता निधि—					
CONTINGENCY FUND OF INDIA—					
भारत की आकस्मिकता निधि के अग्रिमों से व्यय	Expenditure out of advances from the Contingency Fund of India	2,50	..	..	..
जोड़-II—भारत की आकस्मिकता निधि-भुगतान	TOTAL—II—CONTINGENCY FUND OF INDIA—DISBURSEMENTS	2,50	..	..	..

II—केन्द्रीय सरकार की प्राप्तियों और II—ESTIMATES OF RECEIPTS AND

(हजार रुपये में)
(In thousands of Rupees)

प्रति वर्ष

RECEIPTS

	वास्तविक प्राप्तियाँ 1966-67	बजट अनुमान 1967-68	संशोधित अनुमान 1967-68	बजट अनुमान 1968-69	
	Accounts, 1966-67	Budget Estimate, 1967-68	Revised Estimate, 1967-68	Budget, Estimate 1968-69	
III—सार्वजनिक खाता					
III.—PUBLIC ACCOUNT—					
अनिविबद्ध ऋण—					
UNFUNDED DEBT—					
छोटी बचत योजनाएं					
SMALL SAVINGS SCHEMES—					
डाकघर बचत बैंक जमा	Post Office Savings Bank Deposits	3,95,42,11	4,00,00,00	4,40,00,00	4,50,00,00
दश-वर्षीय राजकोष बचत जमा-पत्र	10-Year Treasury Savings Deposit Certificates	10	..	..	..
दश-वर्षीय रक्षा जमा-पत्र	10-Year Defence Deposit Certi- ficates	8,59,48	9,80,00	8,70,00	8,70,00
बारह-वर्षीय राष्ट्रीय आयोजना बचत-पत्र	12-Year National Plan Savings Certificates	—4,65	..	..	..
बारह-वर्षीय राष्ट्रीय रक्षा-पत्र	12-Year National Defence Certi- ficates	87,73,53	80,00,00	83,90,00	83,00,00
बढ़ने वाली मीयादी जमा	Cumulative Time Deposits	18,74,63	24,00,00	23,00,00	25,00,00
डाकघर नकदी-पत्र	Post Office Cash Certificates	..	..	..	..
राष्ट्रीय बचत-पत्र	National Savings Certificates	15,98,43	19,20,00	11,90,00	11,50,00
रक्षा बचत-पत्र	Defence Savings Certificates	6	..	..	..
दश-वर्षीय राष्ट्रीय आयोजना-पत्र	10-Year National Plan Certificates	..	..	..	..
जोड़—छोटी बचत योजनाएं	TOTAL—SMALL SAVINGS SCHEMES	5,26,43,69	5,33,00,00	5,67,50,00	5,78,20,00
राज्य भविष्य निधियाँ	State Provident Funds	1,15,43,64	1,20,07,57	1,44,23,21	1,26,10,00
लोक भविष्य निधि	Public Provident Fund	..	..	..	10,00,00
आयकर वार्षिकी जमा	Income Tax Annuity Deposits	32,34,86	33,60,00	40,00,00	5,00,00
अनिवार्य जमा (शुद्ध)	Compulsory Deposits (net)	..	..	..	..
अमरीकी सरकार की प्रतिरूप निधि की जमा का निवेश (शुद्ध)	Investment of Deposits of U.S. Government Counterpart Funds (Net)	..	1,35,00,00	1,71,00,00	25,00,00
अन्य मदें—					
OTHER ITEMS—					
सेवा निधियों की जमा	Deposit of Service Funds	1,84	1,54	1,67	1,56
अन्य खाते	Other Accounts	4,04,98	3,97,95	40,32,28	4,47,04
जोड़—अन्य मदें	TOTAL—OTHER ITEMS	4,06,82	3,99,49	40,33,95	4,48,60
जोड़—अनिविबद्ध ऋण	TOTAL—UNFUNDED DEBT	6,78,29,01	8,25,67,06	8,63,07,16	7,48,78,60
आगे ले जायी गयी रकम	Carried Over	6,78,29,01	8,25,67,06	8,63,07,16	7,48,78,60

भुगतानों के प्रमाण पत्र

DISBURSEMENTS OF THE CENTRAL GOVERNMENT—contd.

भुगतान	DISBURSEMENTS	(हजार रुपयों में) (In thousands of Rupees)			
		वास्तविक भुगतान 1966-67 Accounts, 1966-67	बजट अनुमान 1967-68 Budget Estimate, 1967-68	संशोधित अनुमान 1967-68 Revised Estimate, 1967-68	बजट अनुमान 1968-69 Budget Estimate 1968-69
II—सार्वजनिक खाता—जारी					
II.—PUBLIC ACCOUNT—contd.					
अनिधिवत् ऋण—					
UNFUNDED DEBT—					
छोटी बचत योजनाएँ—					
SMALL SAVINGS SCHEMES—					
डाकघर बचत बैंक जमा	Post Office Savings Bank Deposits	3,37,73,18	3,33,00,00	3,90,00,00	3,90,00,00
दश-वर्षीय राजकोष बचत जमा-पत्र	10-Year Treasury Savings Deposit Certificates	4,68,21	5,00,00	4,00,00	4,25,00
दश-वर्षीय रक्षा जमा पत्र	10-year Defence Deposit Certificates	98,57	80,00	70,00	70,00
बारह-वर्षीय राष्ट्रीय आयोजना बचत पत्र	12-Year National Plan Savings Cer- tificates	16,59,71	17,60,00	12,76,00	11,40,00
बारह-वर्षीय राष्ट्रीय रक्षा-पत्र	12-Year National Defence Certifi- cates	19,99,57	20,00,00	18,40,00	21,00,00
बढ़ने वाली सीमावर्ती जमा	Cumulative Time Deposits	5,93,74	8,00,00	11,00,00	12,00,00
डाकघर नकदी-पत्र	Post Office Cash Certificates	1,62	2,00	2,00	2,00
रक्षा बचत पत्र	Defence Savings Certificates	3,91	3,00	8,00	3,00
राष्ट्रीय बचत पत्र	National Savings Certificates	17,75,20	16,20,00	18,84,00	18,10,00
दश-वर्षीय राष्ट्रीय आयोजना पत्र	10-Year National Plan Certificates	4,46,51	2,25,00	1,50,00	50,00
कुल छोटी बचत योजनाएँ	TOTAL—SMALL SAVINGS SCHEMES	4,08,20,22	4,02,90,00	4,57,30,00	4,58,00,00
राज्य प्रोविडेंट फंड	State Provident Funds	67,51,68	65,00,73	71,23,21	92,35,10
आयकर प्रतिभूति जमा	Income Tax Annuity Deposits	4,71,53	11,60,00	11,60,00	14,00,00
अनिवार्य जमा (न्यूट)	Compulsory Deposits (net)	74,71	50,00	40,00	25,00
अमेरिकी सरकार की प्रतिरूप निधि की जमा रकम का निवेश (शुद्ध)	Investment of Deposits of U.S Government Counterpart Funds (net)	2,66,00	..	..	..
कुल छोटी बचत योजनाएँ की रकम	Carried Over	4,33,84,14	4,80,00,73	5,40,53,21	5,64,60,10

II- केन्द्रीय सरकार की प्राप्तियों और

II—ESTIMATES OF RECEIPTS AND

(. तार रुपयों में)

(In thousands of Rupees)

प्राप्तियां	RECEIPTS	वास्तविक प्राप्तियां 1966-67	बजट अनुमान 1967-68	संशोधित अनुमान 1967-68	बजट अनुमान 1968-69
		Accounts, 1966-67	Budget Estimate, 1967-68	Revised Estimate, 1967-68	Budget Estimate, 1968-69
III—सार्वजनिक खाता—जारी	III.—PUBLIC ACCOUNT—contd.				
आगे लायी गयी रकम	Brought Forward	6,78,29,01	8,25,67,06	8,63,07,16	7,48,78,60
जमा और अधिम—	DEPOSITS AND ADVANCES—				
मूल्यह्रास और अन्य प्रारक्षित निधियां—	Depreciation and other Reserve Funds—				
(क) ब्याज—	(a) Interest bearing—				
रेलवे पेंशन निधि	Railway Pension Fund	21,52,45	17,56,03	13,31,94	12,69,95
रेलवे बजट के अनुसार रेल मूल्यह्रास और राजस्व प्रारक्षित निधियां	Railway Depreciation and Revenue Reserve Funds as per Railway Budget	1,06,81,65	1,11,45,98	1,01,68,66	1,06,39,95
रेलवे बजट के अनुसार रेल विकास निधि	Railway Development Fund as per Railway Budget	67,66	20,95,94	19,02,87	21,23,84
डाक और तार नवीकरण प्रारक्षित निधि	P. & T. Renewals Reserve Fund	13,43,75	18,07,45	..	..
डाक और तार विकास निधि, डाक और तार राजस्व प्रारक्षित निधि और टेलीफोन विकास निधि	P. & T. Development Fund, P. & T. Revenue Reserve Fund and Telephone Development Fund	2,63,72	6,86,70	24,90,58	7,75,27*
	P & T Capital Reserve Fund	..	..	..	12,65
अन्य प्रारक्षित निधियां	Other Reserve Funds	1,49,25	1,49,35	1,48,25	1,86,22
(ख) गैर-ब्याज—	(b) Non-Interest bearing—				
डाक और तार नवीकरण प्रारक्षित निधि	P&T Renewals Reserve Fund	..	..	14,77,05	16,47,22
अन्य प्रारक्षित निधियां	Other Reserve Funds	44,64	61,45	75,15	86,40
ऋण में कमी करने या ऋण से बचने के लिए विनियोग	Appropriation for Reduction or Avoidance of Debt	5,00,00	5,00,00	5,00,00	5,00,00
अन्य जमा रकमें और अधिम—	Other Deposits and Advances—				
(क) ब्याज—	(a) Interest bearing—				
जहाज विकास निधि	Shipping Development Fund	4,02,48	8,44,95	14,65,14	23,68,95
आयकर, अधिकर, अतिरिक्त लाभ कर और अधिभार की जमा	Deposits of Income Tax, Super Tax, Excess Profits Tax and Surcharge	—3,00	22,00	21,09	21,00
भारतीय राजाओं के निमित्त स्थातों में जमा	Deposits of Trusts for Indian Princes	3,47	3,29	3,29	3,06
अन्य जमा रकमें	Other Deposits	43,66	1,80	1,48	..
आगे ले जायी गयी रकम	Carried Over	1,36,49,73	1,90,74,94	1,95,85,50	1,96,34,51
अगे ले जायी गयी रकम	Carried Over	6,78,29,01	8,25,67,06	8,63,07,16	7,48,78,60

*केवल डाक और तार राजस्व प्रारक्षित निधि से सम्बन्ध लेनदेन

*Represents transactions pertaining to P & T Revenue Reserve Fund only,

भुगतानों के अनुमान—जारी

DISBURSEMENTS OF THE CENTRAL GOVERNMENT—contd.

भुगतान	DISBURSEMENTS	(हजार रुपयों में) (In thousands of Rupees)			
		वास्तविक भुगतान 1966-67	बजट अनुमान 1967-68	संशोधित अनुमान 1967-68	बजट अनुमान 1968-69
		Accounts, 1966-67	Budget Estimate, 1967-68	Revised Estimate, 1967-68	Budget, Estimate 1968-69
III—सार्वजनिक खाता—जारी	III.—PUBLIC ACCOUNT—contd.				
आगे लायी गयी रकम	Brought Forward . . .	4,83,84,14	4,80,00,73	5,40,53,21	5,64,60,10
अन्य मदें—	OTHER ITEMS—				
सेवा-निधियों की जमा	Deposits of Service Funds . . .	3,00	3,13	3,18	3,00
विशेष ऋण	Special Loans . . .	3,52	3,49	3,13	3,13
अन्य खाते	Other Accounts . . .	2,62,98	2,65,26	2,72,06	2,73,11
जोड़—अन्य मदें	TOTAL—OTHER ITEMS . . .	2,69,50	2,71,88	2,78,37	2,79,24
जोड़—अनिवृत्त ऋण	TOTAL—UNFUNDED DEBT . . .	4,86,53,64	4,82,72,61	5,43,31,58	5,67,39,34
जमा और अग्रिम—	DEPOSITS AND ADVANCES—				
मूल्य ह्रास और अन्य प्रारक्षित निधियां	Depreciation and Other Reserve Funds—				
(क) व्याज	(a) Interest bearing—				
रेलवे पेंशन निधि	Railway Pension Fund . . .	3,76,55	4,09,93	5,27,12	5,35,05
रेलवे बजट के अनुसार रेल मूल्य ह्रास और राजस्व प्रारक्षित निधियां	Railway Depreciation and Revenue Reserve Funds as per Railway Budget . . .	1,00,35,38	1,12,05,49	1,28,54,86	1,01,36,08
रेलवे बजट के अनुसार रेल विकास निधि	Railway Development Fund as per Railway Budget . . .	27,95,00	22,41,15	22,39,41	21,23,84
डाक और तार नवीकरण प्रारक्षित निधि	P. & T. Renewals Reserve Fund . . .	4,97,74	4,27,00	..	..
डाक और तार विकास निधि, डाक और तार राजस्व प्रारक्षित निधि और टेलीफोन विकास निधि	P. & T. Development Fund, P. & T. Revenue Reserve Fund and Telephone Development Fund . . .	6,32,10	5,25,00	25,85,61	7,75,27
डाक और तार पूंजी प्रारक्षित निधि	P & T Capital Reserve Fund . . .	..	..	..	4,65,00
अन्य प्रारक्षित निधियां	Other Reserve Funds . . .	1,10,19	81,44	97,44	2,00,96
(ख) गैर-व्याज	(b) Non-Interest bearing—				
डाक और तार नवीकरण प्रारक्षित निधि	P. & T. Renewals Reserve Fund . . .	..	..	4,09,00	3,24,46
अन्य प्रारक्षित निधियां	Other Reserve Funds . . .	18,92	41,61	20,44	17,06
आगे ले जायी गयी रकम	Carried Over . . .	1,44,65,88	1,49,31,62	1,87,33,88	1,45,77,72
आगे ले जायी गयी रकम	Carried Over . . .	4,86,53,64	4,82,72,61	5,43,31,58	5,67,39,34

क्रैकेस डाक और तार राजस्व प्रारक्षित निधि से सम्बद्ध लेन-देन

‡Represents transactions pertaining to P&T Revenue Reserve Fund only.

II—कन्द्रीय सरकार की प्राप्तियों और
II—ESTIMATES OF RECEIPTS AND

प्राप्तियां	RECEIPTS	(हजार रुपयों में) (In thousands of Rupees)			
		वास्तविक प्राप्तियां 1966-67	बजट अनुमान 1967-68	संशोधित अनुमान 1967-68	बजट अनुमान 1968-69
		Accounts, 1966-67	Budget Estimate, 1967-68	Revised Estimate, 1967-68	Budget Estimate, 1968-69
III—सार्वजनिक खाता—जारी	III.—PUBLIC ACCOUNT—contd.				
आगे लायी गयी रकम	Brought Forward	6,78,29,01	8,25,67,06	8,63,07,16	7,48,78,60
आगे लायी गयी रकम	Brought Forward	1,56,49,73	1,90,74,04	1,95,85,50	1,96,34,51
(ख) गैर ब्याज—	(b) Non-Interest bearing—				
केन्द्रीय सड़क निधि	Central Road Fund	3,04,85	3,50,00	3,50,00	4,00,00
कपास खेतिहर हितकारी निधि	Fund for the Benefit of Cotton Growers	40,57	62,25	90,00	90,00
सूती वस्त्र उद्योग निधि	Cotton Textiles Fund	..	..	..	..
विपणन विकास निधि	Marketing Development Fund	14,03,19	17,59,00	22,68,00	42,00,00
प्रसैनिक उड़्डयन निधि	Civil Aviation Fund	..	1,00,00	1,00,00	70,00
विशेष विकास निधि—	Special Development Fund—				
कोलम्बो आयोजना के अधीन प्राप्त अन्य सहायता से स्थापित निधि	Fund from other Assistance under the Colombo Plan	11,84,54	4,21,20	4,48,60	2,82,55
भारत अमरीकी तकनीकी सहयोग करार के अधीन प्राप्त सहायता से स्थापित निधि	Fund from Assistance under the Indo-U.S. Technical Cooperation Agreement	1,30,35	1,66,13	1,49,31	1,23,08
अन्य निधियां	Other Funds	4,41,31,46	1,97,20,67	1,62,21,98	
जोड़	TOTAL	4,54,46,35	2,03,20,16	1,68,20,00	4,05,63
आगे ले जायी गयी रकम	Carried Over	6,28,44,69	4,16,66,35	3,92,13,50	2,46,00,14
आगे ले जायी गयी रकम	Carried Over	6,78,29,01	8,25,67,06	8,63,07,16	7,48,78,60

भुगतानों के अनुमान—जारी

DISBURSEMENTS OF THE CENTRAL GOVERNMENT—*contd.*

भुगतान	DISBURSEMENTS	(हजार रुपये में) (In thousands of Rupees)			
		वास्तविक भुगतान 1966-67	बजट अनुमान 1967-68	संशोधित अनुमान 1967-68	बजट अनुमान 1968-69
		Accounts, 1966-67	Budget Estimate, 1967-68	Revised Estimate, 1967-68	Budget Estimate, 1968-69

III—सार्वजनिक खाता—जारी

III.—PUBLIC ACCOUNT—*contd.*

आगे लायी गयी रकम	Brought Forward	4,86,53,64	4,82,72,61	5,43,31,58	5,67,39,34
आगे लायी गयी खाता	Brought Forward	1,44,65,88	1,49,32,62	1,47,30,68	1,57,77,72
अन्य जमा और अग्रिम—	OTHER DEPOSITS AND ADVANCES—				
(क) व्याज	(a) Interest bearing—				
जहाज विकास निधि	Shipping Development Fund	..	10,66,92	11,72,67	23,68,95
आय-कर, आयकर, अतिरिक्त लाभ कर और आधिकार की जमा	Deposits of Income-tax, Super Tax, Excess Profits Tax and Surcharge	27,32	11,61	26,87	21,39
अन्य जमा रकम	Other Deposits	18,63,60	87,63	88,86	..
भारतीय राजाश्री के निमित्त व्ययों में जमा	Deposits of Trusts for Indian Princes	21,04	21,04	21,01	21,04
(ख) गैर-व्याज	(b) Non-Interest bearing—				
केन्द्रीय सड़क निधि	Central Road Fund	5,79,47	3,30,00	3,75,21	4,31,04
कपास खेतिहर हितकारी निधि	Fund for the Benefit of Cotton Growers	20,57	5,00	5,00	5,00
सूती वस्त्र निधि	Cotton Textiles Fund	3,02	..	..	..
बीनी उद्योग संरक्षण निधि	Fund for the Protection of Sugar In- dustry	1,15	1,06	..	1,06
विपणन विकास निधि	Marketing Development Fund	12,60,86	17,59,00	23,96,00	40,00,00
असैनिक उड्डयन निधि	Civil Aviation Fund	58,00	1,25,00	97,00	1,13,00
आगे ले जायी गयी रकम	Carried Over	1,83,02,91	1,83,29,62	2,29,22,53	2,15,39,20
आगे ले जायी गयी रकम	Carried Over	4,86,53,64	4,82,72,61	5,43,31,58	5,67,39,34

II—केन्द्रीय सरकार की प्राप्तियों और II—ESTIMATES OF RECEIPTS AND

प्राप्तियाँ	RECEIPTS	(हजार रुपयों में) (In thousands of Rupees)			
		वास्तविक प्राप्तियाँ 1966-67	बजट अनुमान 1967-68	संशोधित अनुमान 1967-68	बजट अनुमान 1968-69
		Accounts, 1966-67	Budget Estimate, 1967-68	Revised Estimate, 1967-68	Budget Estimate, 1968-69
III—सार्वजनिक खाता—जारी	III.—PUBLIC ACCOUNT—<i>contd.</i>				
आगे लायी गयी रकम	Brought Forward	6,78,29,01	8,25,67,06	8,63,07,16	7,48,78,60
आगे लायी गयी रकम	Brought Forward	6,28,44,69	4,16,66,35	3,92,13,50	2,46,00,14
कोयला खान श्रमिक आवास और सामान्य कल्याण निधि	Coal Mines Labour Housing and General Welfare Fund	4,01,74	3,70,79	3,94,05	3,78,08
कोयला खान केन्द्रीय सुरक्षा केन्द्र निधि	Coal Mines Central Rescue Station Fund	19,75	19,10	19,10	19,10
लोहा खान श्रमिक कल्याण निधि	Iron-Ore Mines Labour Welfare Fund	62,51	65,00	64,62	69,02
प्रभरक खान श्रमिक कल्याण निधि	Mica Mines Labour Welfare Fund	30,32	33,00	37,79	30,00
लोहा और इस्पात समकरण निधि	Iron and Steel Equalisation Fund]	2,62,77	1,50,00	1,50,00	1,00,00
डाकघर सर्टिफिकेट और बढ़ने वाली मीयादी जमा से संबद्ध बोनस निधि	Post Office Certificates Cumu- lative Time Deposits Bonus Fund	23,61,37	30,66,35	32,90,37	37,59,77
राष्ट्रीय रक्षा कोष	National Defence Fund	3,44,82	1,00,00	60,00	..
संकटकालीन जोखिम (माल और कारखाना) बीमा निधियाँ	Emergency Risks (Goods and Facto- ries) Insurance Funds	7,35,01	2,60,00	1,84,65	2,00,00
स्थानीय निधियों की जमा रकमें	Deposits of Local Funds	1,93,27	1,83,97	8,05,67	7,96,73
प्रसैमिक जमा	Civil Deposits	5,64,79,64	4,58,52,67	6,50,49,07	4,79,42,86
प्रत्येक जमा रकम	Other Deposits	1,03,64,44	1,01,36,03	93,85,68	1,99,00,64
आगे ले जायी गयी रकम	Carried Over	13,41,00,33	10,19,03,26	11,86,54,50	8,77,96,34
आगे ले जायी गयी रकम	Carried Over	6,78,29,01	8,25,67,06	8,63,07,16	7,48,78,60

[गुप्तानो के अनुमान—जारी

DISBURSEMENTS OF THE CENTRAL GOVERNMENT—contd.

भुगतान	DISBURSEMENTS	(हजार रुपयों में) (In thousands of Rupees)			
		वास्तविक भुगतान 1966-67	बजट अनुमान 1967-68	संशोधित अनुमान 1967-68	बजट अनुमान 1968-69
		Accounts, 1966-67	Budget Estimate, 1967-68	Revised Estimate, 1967-68	Budget Estimate, 1968-69
III—सार्वजनिक खाता—जारी	III.—PUBLIC ACCOUNT—contd.				
आगे लायी गयी रकम	Brought Forward	4,86,13,64	4,82,72,61	5,43,31,58	5,67,39,34
आगे लायी गयी रकम	Brought Forward	1,83,02,91	1,83,29,61	2,29,22,53	2,15,39,20
विशेष विकास निधि—	Special Development Fund—				
भारत-अमरीकी तकनीकी सहयोग करार के अधीन प्राप्त सहायता से स्थापित निधि	Fund from Assistance under the Indo-U.S. Technical Co-operation Agreement	1,37,51	80,34	81,30	52,81
कोलम्बो आयोजना के अधीन प्राप्त अन्य सहायता से स्थापित निधि	Fund from Other Assistance under the Colombo Plan	142,00	36,40	60,20	35,75
अन्य निधियां	Other Funds	5140,23	26,36,20	36,08,47	..
जोड़	TOTAL	60,19,74	27,52,94	37,49,97	88,56
कोयला खान श्रमिक आवास और सामान्य कल्याण निधि	Coal Mines Labour Housing and General Welfare Fund	376,49	4,82,88	4,99,33	5,25,56
कोयला खान केन्द्रीय सुरक्षा केन्द्र निधि	Coal Mines Central Rescue Station Fund	16,69	21,33	21,80	23,07
लोहा खान श्रमिक कल्याण निधि	Iron-Ore Mines Labour Welfare Fund	11,75	34,19	25,29	37,53
अबरक खान श्रमिक कल्याण निधि	Mica Mines Labour Welfare Fund	40,44	40,26	38,66	46,15
लोहा और इस्पात समकरण निधि	Iron and Steel Equalisation Fund	156,95	2,20,20	65,69,15	1,52,00
आगे ले जायी गयी रकम	Carried over	2,55,24,97	2,18,81,41	3,38,26,73	2,24,12,07
आगे ले जायी गयी रकम	Carried over	4,85,53,64	4,82,72,61	5,43,31,58	5,67,39,34

II.—ESTIMATES OF RECEIPTS AND

शक्तियाँ	RECEIPTS	(हजार रुपया में) (In thousands of Rupees)			
		वास्तविक शक्तियाँ	बजट अनुमान	सशोधित अनुमान	बजट अनुमान
		1966-67	1967-68	1967-68	1968-69
		Accounts, 1966-67	Budget Estimate, 1967-68	Revised Estimate, 1967-68	Budget Estimate, 1968-69
III—सार्वजनिक खाता गरी					
III.—PUBLIC ACCOUNT—contd					
आगे लायी गयी रकम	Brought Forward	6,78,29,01	8,25,67,06	8,63,07,16	7,48,78,60
आगे लायी गयी रकम	Brought Forward	13,41,00,33	10,19,03,26	11,86,54,50	8,77,96,34
व्याज और अधिभार सहित आयकर, अधिभार और सशुल्कित लाभ-कर की जमा	Deposits of Income Tax, Super Tax, Excess Profits Tax including Interest and Surcharge	2,85	..	..	..
शारीरिक क्षति (हानिपूर्ति बीमा) निधि	Personal Injuries (Compensation Insurance) Fund	32,49	15,00	15,00	10,00
युद्ध जोखिम (समुद्री नौकाज) पनर्विमान निधि	War Risk (Marine and Air) Insurance Fund	34,00	35,00	43,98	44,00
रेलवे सुरक्षा कार्य निधि	Railway Safety Works Fund	1,41,29	1,46,13	1,47,14	1,72,00
फोर्ड फाउण्डेशन द्वारा दी जाने वाली सहायता का जमा खाता	Deposit Account of the Assistance given by the Ford Foundation	6,26	2,25,00	25,00	25,00
अन्य बातें	Other Accounts	34,52,86	17,51,74	37,14,85	23,48,46
श्रमिक कल्याण निधि	Workmen's Benefit Fund	..	..	..	..
बर्मा सरकार के साथ हिसाब खाता	Accounts with the Government of Burma	..	..	1	1
रिजर्व बैंक के साथ हिसाब खाता	Accounts with the Reserve Bank	12,48	4,11,27	4,84,01	4,73,94
अन्य अग्रिम	Other Advances	3,10,61,33	2,26,77	2,27,11,90	3,41,46,64
शेकर गारंटी निवेश खाता (शुद्ध)	Cash Reserve for Government Account (net)	79,65,85	27,61	..	6,95
बड़ा डिस्काउंट खाता	Discount Reserve Account	1,74,29	1,99,7	1,89,74	1,65,88
अन्य सुरक्षा खाते (शुद्ध)	Other Reserve Accounts (net)	..	..	..	..
अग्रिम (जीएसटी और इन्डिपेंडेंट गारंटी) का खाता	Advance (GST and Independent Guarantee) Account	..	..	10,48,79	..
अन्य अग्रिम	Miscellaneous Advances	78,03,29	27	63,68,10	76
अग्रिम, प्रपोजिट और डिपॉजिट	Advances, Deposits and Deposits	13,47,87,32	13,47,77	14,03,75	12,52,30,63
अग्रिम, प्रपोजिट और डिपॉजिट	Advances, Deposits and Deposits	22,25,15	3,27,77	2,57,11,11	22,01,09,2

भुगतानों के अनुमान—जारी

DISBURSEMENTS OF THE CENTRAL GOVERNMENT—*contd.*

भुगतान	DISBURSEMENTS	(हजार रुपये में) (In thousands of Rupees)			
		वास्तविक भुगतान 1966-67	बजट अनुमान 1967-68	संशोधित अनुमान 1967-68	बजट अनुमान 1968-69
		Accounts, 1966-67	Budget Estimate, 1967-68	Revised Estimate, 1967-68	Budget Estimate, 1968-69
II.—सार्वजनिक खाता—जारी					
प्राप्ति लायी गयी रकम	Brought Forward	4,86,53,64	4,82,72,61	5,43,31,58	5,67,39,34
प्राप्ति लायी गयी रकम	Brought Forward	2,54,24,97	2,18,81,41	3,38,26,73	2,24,12,07
डाकघर सर्टिफिकेट और बढ़ने वाली मीयादी जमा से सम्बद्ध बोनस-निधि	Post Office Certificates and Cumulative Time Deposits Bonus Fund	6,07,00	7,17,66	6,99,14	6,73,60
राष्ट्रीय रक्षा कोष	National Defence Fund	33,38	3,00,00	10,00	3,00,00
संकटकालीन जोखिम (माल और कार-खाता) बीमा निधियाँ	Emergency Risks (Goods and Factories) Insurance Funds	95,04	3,58,00	1,42,79	1,75,12
स्थानीय निधियों की जमा रकमें	Deposits of Local Funds	1,94,28	1,84,81	7,83,72	7,85,73
प्रसैनिक जमा	Civil Deposits	5,37,60,37	4,60,75,60	6,28,25,81	4,80,88,72
अन्य जमा रकमें	Other Deposits	96,65,57	94,67,50	90,58,46	90,49,25
ब्याज और अधिभार सहित आयकर, अधिकार और अतिरिक्त लाभ-कर की जमा	Deposits of Income Tax, Super Tax, Excess Profits Tax including Interest and Surcharge	17,57	25	3,91	25
शारीरिक क्षति (क्षतिपूर्ति बीमा) निधि	Personal Injuries (Compensation Insurance) Fund	1,00	1,50	1,60	3,55
युद्ध जोखिम (समुद्री जहाज) पुनर्बीमा निधि	War Risks (Marine Hulls) Re-Insurance Fund	..	5,13	5,23	5,14
रेलवे सुरक्षा कार्य निधि	Railway Safety Works Fund	..	2,87,42	1,00,00	3,60,43
फोर्ड फाउण्डेशन द्वारा दी जाने वाली सहायता का जमा खाता	Deposit Account of the Assistance given by the Ford Foundation	20,80	67,20	5,50	3,52
अन्य खाते	Other Accounts	30,94,27	16,05,93	31,73,33	23,12,75
श्रमिक कल्याण निधि	Workmen's Benefit Fund	..	33	20	2
बर्मा सरकार के साथ हिसाब खाता	Accounts with the Government of Burma	1,35	76	—47	..
रिजर्व बैंक के साथ हिसाब खाता	Accounts with the Reserve Bank	4,97	3,10,00	4,88,72	4,77,63
अन्य अधिम	Other Advances	3,17,52,22	3,03,17,94	3,35,86,24	3,40,07,25
रोकड़ बाकी निवेश खाता (शुद्ध)	Cash Balance Investment Account (net)	..	..	8,53,42	..
बट्टा शोधन निधि	Discount Sinking Fund	2,33,48	..	..	..
अन्य उचित खाते (शुद्ध)	Other Suspense Accounts (net)	1,83,49,06	15,70,08	24,62,27	..
घनादेश (चक) और ड्रिडियाँ (शुद्ध)	Cheques and Bills (net)	6,43,25	24,89,38	16,52,17	12,48,71
विभागीय और दूसरे ऐसे ही खाते (शुद्ध)	Departmental and Similar Accounts (net)	38,95,02	5,79,99	..	55,43
विविध	Miscellaneous	13,85,71	4,17	7,48	3,76
जोड़—जमा और अधिम	TOTAL—DEPOSITS AND ADVANCES	14,91,79,31	11,62,29,06	14,96,86,25	11,99,62,93
प्राप्ति ले जायी गयी रकम	Carried Over	19,78,32,95	16,45,01,67	20,40,17,83	17,67,02,27

II—केन्द्रीय सरकार की प्राप्तियों और

II—ESTIMATES OF RECEIPTS AND

प्राप्तियां

RECEIPTS

(हजार रुपये में)

(In thousands of Rupees)

	वास्तविक प्राप्तियां 1966-67	बजट अनुमान 1967-68	संशोधित अनुमान 1967-68	बजट अनुमान 1968-69	
	Accounts, 1966-67	Budget Estimate, 1967-68	Revised Estimate, 1967-68	Budget Estimate, 1968-69	
III—सार्वजनिक खाता—जारी	III.—PUBLIC ACCOUNT—concld..				
आगे लायी गयी रकम	Brought Forward	25,26,16,33	21,74,41,34	25,07,11,11	20,01,09,23
प्रेषणाएं—	REMITTANCES—				
I—भारत में प्रेषणाएं—	I.—REMITTANCES WITHIN INDIA—				
अंतर्देशीय मनी ऑर्डर	Inland Money Orders	5,19,34,59	5,30,00,00	5,50,00,00	5,80,00,00
अन्य प्रेषणाएं	Other Remittances	8,45,45	10,50	19,94,74	20,13,23
II—इंग्लैण्ड और भारत के बीच प्रेषणाएं—	II.—REMITTANCES BETWEEN ENGLAND AND INDIA—				
इंग्लैण्ड और भारत के बीच प्रेषण—खाता	Remittance Accounts between Eng- land and India	5,50,58,34	3,83,90,28	3,71,76,42	3,40,26,21
जोड़—प्रेषणाएं	TOTAL—REMITTANCES	10,78,38,38	9,14,00,78	9,41,71,16	9,40,39,44
इंग्लैण्ड और भारत के बीच नकदी का अन्तरण—	TRANSFER OF CASH BETWEEN ENGLAND AND INDIA—				
रिजर्व बैंक की मार्फत प्रेषणाएं	Remittances through the Reserve Bank	3,26,45,26	2,19,27,55	2,02,66,36	1,31,77,47
रिजर्व बैंक में जमा—	RESERVE BANK DEPOSITS—				
रेल्वे	Railways	—1,32,65,65	—1,38,22,06	—1,49,66,20	—1,03,47,10
डाक और तार	Posts and Telegraphs	44,56,43	64,87,22	37,64,18	42,03,82
रक्षा सेवाएं	Defence Services	—9,11,96,35	—9,78,11,32	—9,74,33,51	—10,39,06,36
जोड़—III—सार्वजनिक खाता—प्राप्तियां	TOTAL III.—PUBLIC ACCOUNT— RECEIPTS				
घटाई—वित्तीय संस्थानों और प्राकृतिक व्यय के लिए व्यवस्था	Deduct—Provision for Financial In- stitutions and Contingencies	..	(—)16,00,00	..	..
जोड़—(I+II+III)—प्राकृतिक व्यय प्राप्ति के लिए दी जाने वाली व्यवस्था को घटा कर	TOTAL—(I+II+III) LESS PROVISION FOR CONTINGENCIES ETC.				
पूर्व शेष	OPENING BALANCE	43,62,93	50,54,08	1,06,06,91	51,06,91
कुल जोड़	GRAND TOTAL	1,65,04,44,68	1,62,67,90,42	1,67,58,67,14	1,73,60,17,25

भुगतानों के अनुमान—समाप्त

DISBURSEMENTS OF THE CENTRAL GOVERNMENT—concl'd.

भुगतान

DISBURSEMENTS

(हजार रुपये में)
(In thousands of Rupees)

	वास्तविक भुगतान 1966-67	बजट अनुमान 1967-68	संशोधित अनुमान 1967-68	बजट अनुमान 1968-69
	Accounts, 1966-67	Budget Estimate, 1967-68	Revised Estimate, 1967-68	Budget Estimate, 1968-69
II—सार्वजनिक खाता—समाप्त	III—PUBLIC ACCOUNT—concl'd.			
आगे लायी गयी रकम	Brought Forward	19,78,32,95	16,45,01,67	20,40,17,83
				17,67,02,27
प्रेषणाएं	REMITTANCES—			
I—भारत में प्रेषणाएं—	I.—REMITTANCES WITHIN INDIA—			
अन्तर्देशीय मनी ऑर्डर	Inland Money Orders	5,06,23,61	5,20,00,00	5,50,00,00
अन्य प्रेषणाएं	Other Remittances	30,40,80	5,15,95	25,22,00
				27,80,00
II—इंग्लैंड और भारत के बीच प्रेषणाएं	II.—REMITTANCES BETWEEN ENGLAND AND INDIA—			
इंग्लैंड और भारत के बीच प्रेषण-खाता	Remittance Account between England and India	5,10,52,12	3,83,90,28	3,71,76,42
जोड़—प्रेषणाएं	TOTAL—REMITTANCES	10,47,16,53	9,09,06,23	9,46,98,42
				9,48,06,21
इंग्लैंड और भारत के बीच नकदी का अन्तरण—	TRANSFER OF CASH BETWEEN ENGLAND AND INDIA—			
रिजर्व बैंक की मार्फत प्रेषणाएं	Remittances through the Reserve Bank	2,94,94,65	2,19,27,55	2,02,66,36
रिजर्व बैंक में जमा—	RESERVE BANK DEPOSITS—			
रेल्वे	CIVIL	2	..	..
डाक और तार	RAILWAYS	1,32,65,65	1,38,22,06	1,49,66,20
रक्षा सेवाएं	POSTS AND TELEGRAPHS	44,86,43	64,87,22	37,64,18
	DEFENCE SERVICES	9,11,96,35	9,78,11,32	9,74,33,51
				10,39,06,36
जोड़—III—सार्वजनिक खाता—भुगतान	TOTAL — III — PUBLIC ACCOUNT—			
जोड़—(I+II+III)	DISBURSEMENTS	23,26,38,58	17,21,89,29	21,03,47,08
इति शेष	TOTAL (I+II+III)	1,63,98,37,77	1,62,16,65,36	1,67,07,60,23
कूल जोड़	Closing Balance	1,06,06,91	51,25,06	51,06,91
	GRAND TOTAL	1,65,04,44,68	1,62,67,90,42	1,67,58,67,14
				1,73,60,17,23

GOVERNMENT OF INDIA

BUDGET

OF THE
**Railway Revenue and Expenditure of the
 Central Government for
 1968-69**

MINISTRY OF RAILWAYS, } B. MUKERJI
Dated, the 20th November, 1968 } *Financial Commissioner for Railways*

CONTENTS

	PAGE
1.—STATEMENT OF THE REVENUE OF THE CENTRAL GOVERNMENT FROM RAILWAYS	1027
2.—STATEMENT OF THE EXPENDITURE ON RAILWAYS MET FROM THE REVENUE OF THE CENTRAL GOVERNMENT	1028
3.—DISTRIBUTION OF RAILWAYS' SURPLUS.	1029
4.—STATEMENT OF THE WORKS EXPENDITURE OF THE CENTRAL GOVERNMENT ON RAILWAYS	1029
A.—RAILWAY DEPRECIATION RESERVE FUND	1030
B.—RAILWAY REVENUE RESERVE FUND	1030
C.—RAILWAY DEVELOPMENT FUND	1131
D.—RAILWAY PENSION FUND.	1031

1.—Statement of the Revenue of the Central Government from Railways

(In thousands of rupees)

HEADS OF REVENUE	Accounts, 1966-67	Budget Estimate, 1967-68	Revised Estimate, 1967-68	Increase(+) or Decrease(—) as compared with Budget, 1967-68	Budget Estimate, 1968-69
M—RAILWAYS—REVENUE	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
LXIV-A & LXV-A—Indian Railways—					
Revenue Receipts—					
Passenger Earnings—					
Upper	27,13,88	33,46,00	29,14,00	—4,32,00	31,38,00
Third	202,20,19	221,79,00	226,11,00	+4,32,00	246,62,00*
Other Coaching Earnings	39,02,77	40,25,00	39,80,00	—45,00	43,00,00
Goods Earnings	481,62,19	526,00,00	509,00,00	—17,00,00	545,00,00
Sundry Other Earnings	24,76,84	26,00,00	26,50,00	+50,00	28,50,00
TOTAL—EARNINGS	774,75,87	847,50,00	830,55,00	—16,95,00	894,50,00*
Suspense	—5,97,87	—50,00	—1,00,00	—50,00	—2,00,00
†Gross Receipts of Indian Railways	768,78,00	847,00,00	829,55,00	—17,45,00	892,50,00*
LXIV-B & LXV-B—Other Miscellaneous Receipts—					
Miscellaneous receipts	19,72	16,29	19,71	+3,42	14,45
LXVI—Subsidised Companies—					
Government share of surplus profits, etc.	2,51	35,96	12,50	—23,46	4,76
LXVII—Transfer from Railway Revenue Reserve Fund	..	..	..	..	..
TOTAL—RECEIPTS	769,00,23	847,52,25	829,87,21	—17,65,04	892,69,21*
†Includes earnings of worked lines	54,56	56,69	60,86	+4,17	63,42

*Excludes the effect of concession announced in Parliament during the discussion on the Railway Budget.

2.—Statement of the Expenditure on Railways met from the Revenue of the Central Government

(In thousands of rupees)

HEADS OF EXPENDITURE	Accounts, 1966-67	Budget Estimate, 1967-68	Revised Estimate, 1967-68	Increase(+)/ Decrease(—) as compared with Budget, 1967-68	Budget Estimate, 1968-69
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
M—RAILWAYS—EXPENDITURE					
83-A & 82-A—Working Expenses—					
(i) Ordinary Working Expenses	525,60,87	567,20,93	589,73,62	+22,52,69	614,00,84
(ii) Appropriation to Depreciation Reserve Fund	100,00,00	105,00,00	95,00,00	—10,00,00	100,00,00
(iii) Appropriation to Pension Fund.	13,50,00	14,90,00	9,93,00	—4,97,00	9,93,00
83-C—Payments to Worked Lines—					
(i) Net earnings	14,50	14,30	15,43	+1,13	14,98
(ii) Rebate, etc.	..	..	75	+75	1,79
†83-B & 84-B—Other Miscellaneous Expenditure	5,27,02	5,95,26	6,08,94	+13,68	6,56,21
85.—Payments to General Revenues—					
(a) Dividend to General Revenues.	132,39,18	141,55,86	141,08,43	—47,43	152,00,25
(b) Deduct—amount met from Revenue Reserve Fund	—18,27,17	..	—22,59,23	—22,59,23	:
86.—Subsidised Companies—					
Land	..	..	..	..	..
Subsidy	33,09	23,15	21,27	—1,88	2,14
88.—Open Line Works—Revenue	10,02,74	11,25,00	10,23,00	—1,00,00	9,00,00
87.—Appropriation from Railway Surplus—					
(i) Appropriation to Railway Revenue Reserve Fund	..	..	..	..	..
(ii) Appropriation to Railway Development Fund	..	1,27,75	..	—1,27,75	1,00,00**
(iii) Appropriation to Railway Depreciation Reserve Fund	..	..	..	..	..
TOTAL—EXPENDITURE	769,00,23	847,52,25	8,29,87,21	—17,65,04	892,69,21**
†Includes— Appropriation from Revenue to Railway Pension Fund	10,00	15,00	7,00	—8,00	7, 0

*Excludes the effect of concession announced in Parliament during the discussion on the Railway Budget.

*Also takes note of the transactions in the Contingency Fund.

3.—Distribution of Railway's Surplus

(In thousands of rupees)

HEADS OF EXPENDITURE	Accounts, 1966-67	Budget, Estimate, 1967-68	Revised Estimate, 1967-68	Budget Estimate, 1968-69
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
Surplus	..	1,27,75	..	1,00,00*
Railway Development Fund	..	1,27,75	..	1,00,00*
Railway Revenue Reserve Fund	..	..	..	..
Railway Depreciation Reserve Fund	..	..	..	..

* Excludes the effect of concession announced in Parliament during the discussion on the Railway Budget.

4.—Statement of the Works Expenditure of the Central Government on Railways

(In thousands of rupees)

HEADS OF EXPENDITURE	Accounts, 1966-67	Budget Estimate, 1967-68	Revised Estimate, 1967-68	Increase(—) Decrease(—) as compared with Budget, 1967-68	Budget Estimate, 1968-69
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
MM—Capital					
Railway Capital not met from Revenue—					
131 & 132.—Construction of Railways—	160,70,29	161,75,00	1,50,00,00	—11,75,00	143,00,00
T—Deposit and advances—					
Works expenditure met from Railway Funds—					
Depreciation Reserve Fund	79,69,23	110,00,00	103,80,00	—6,20,00	100,00,00
Development Fund	27,95,00	22,00,00	22,00,00	..	20,00,00
M—Revenue—					
88.—Open Line Works—Revenue	10,02,74	11,25,00	10,25,00	—1,00,00	9,00,00
GRAND TOTAL	278,37,26	305,00,00	286,05,00	—18,95,00	272,00,00

A—RAILWAY DEPRECIATION RESERVE FUND

(In thousands of rupees)

	Accounts, 1966-67	Budget Estimate, 1967-68	Revised Estimate, 1967-68	Budget Estimate, 1968-69		Accounts, 1966-67	Budget Estimate, 1967-68	Revised Estimate, 1967-68	Budget Estimate, 1968-69
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
*Opening Balance	** 52,84,58	65,40,88	77,76,22	74,28,80	Appropriation from Depreciation Re- serve Fund	79,69,23	110,00,00	103,80,00	100,00,00
Appropriation to Depreciation Re- serve Fund	(a) 102,01,01	(b) 107,18,73	(c) 97,18,31	(d) 102,28,19					
Interest on Depre- ciation Reserve Fund	2,59,86	2,68,17	@ 3,14,27	3,23,59	Closing Balance	77,76,22	65,27,78	74,28,80	79,80,58
TOTAL	157,45,45	175,27,78	178,08,80	179,80,58	TOTAL	157,45,45	175,27,78	178,08,80	179,80,58

*Includes 7,83,93 (provisional) on account of Indian States Railways taken over from 1-4-1950.

**Excludes 36 due to transfer of expenditure erroneously booked under Development Fund on Northeast Frontier Railway.

@ Excludes 64 on account of adjustment of arrear interest relating to 1966-67.

(a) Includes	2,01,01	debitable to Workshop Manufacture Suspense Account—C.L.W.	(1,00,03)	I.C.F.	(40,28)	D.L.W.	(60,70)
(b) „	2,18,73	„	„	„	(1,12,52)	„	(41,21)
(c) „	2,18,31	„	„	„	(1,15,24)	„	(42,12)
(d) „	2,28,19	„	„	„	(1,20,89)	„	(43,55)

B—RAILWAY REVENUE RESERVE FUND

(In thousands of rupees)

	Accounts, 1966-67	Budget Estimate, 1967-68	Revised Estimate, 1967-68	Budget Estimate, 1968-69		Accounts, 1966-67	Budget Estimate, 1967-68	Revised Estimate, 1967-68	Budget Estimate, 1968-69
	Rs. (a)	Rs. (b)	Rs. (b)	Rs. (b)		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
* Opening Balance	63,20,55	38,99,15	44,70,03	21,31,25	Appropriation from Railway Revenue Reserve Fund—				
Appropriation to Railway Revenue Reserve Fund from Surplus, etc.	..	..	..	..	(i) For Amortising Capital	2,38,98	2,05,49	2,15,63	1,36,08
Interest on Railway Revenue Reserve Fund	(c) 2,15,63	(d) 1,59,08	†(e) 1,36,08	(f) 88,17	(ii) For making good the shortfall in Net Revenue for payment of full dividend	18,27,17	..	22,59,23	..
					Closing Balance	(b) 44,70,03	(b) 38,52,74	(b) 21,31,25	(b) 20,83,34
TOTAL	65,36,18	40,58,23	46,06,11	22,19,42	TOTAL	65,36,18	40,58,23	46,06,11	22,19,42

*Includes 172.29 lakhs (provisional) on account of Indian States Railways taken over from 1-4-1950.

†Excludes 0.52 lakh on account of adjustment of arrear interest relating to 1966-67.

(a) Includes 36.59 lakhs on account of investments in shares of and loans to Branch Line Companies.

(b) „ 31.45 lakhs on account of investment in shares of and loans to Branch Line Companies.

(c) „ 2.30 lakhs on account of interest and dividend etc., on investments.

(d) „ 1.30 „ „ „

(e) „ 1.19 „ „ „

(f) „ 0.99 „ „ „

C—RAILWAY DEVELOPMENT FUND

(In thousands of rupees)

	Accounts, 1966-67	Budget Estimate, 1967-68	Revised Estimate, 1967-68	Budget Estimate, 1968-69		Accounts, 1966-67	Budget Estimate, 1967-68	Revised Estimate, 1967-68	Budget Estimate, 1968-69
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
Opening Balance	†30,63,88	1,45,21	3,36,54	..	Appropriation from Development Fund	27,95,00	22,00,00	22,00,00	20,00,00
Appropriation to De- velopment Fund—									
(i) Revenue Surplus	..	1,27,75	..	1,00,00	Repayment of Loan	..	..	..	..
(ii) Loans from Gen- eral Revenues					Interest on loan	..	41,15	39,41	1,23,84
(a) Works Expendi- ture	..	19,27,04	18,63,46	19,00,00	Closing Balance	3,36,54	..	..	..
(b) Interest on Loan	..	37,33	32,47	1,23,84					
Interest on Develop- ment Fund	67,66	3,82	*6,94	..					
TOTAL	31,31,54	22,41,15	22,39,41	21,23,84	TOTAL	31,31,54	22,41,15	22,39,41	21,23,84

†Includes 54.26 lakhs due to transfer to Capital of the cost of certain works now assessed to be remunerative justifying their charge to Capital, 0.45 lakh due to transfer of outlay to Open Line Works Revenue and 0.36 lakh due to transfer to Depreciation Reserve Fund of Expenditure erroneously charged to this Fund on the Northeast Frontier Railway.

*Excludes 0.17 lakh on account of adjustment of arrear interest relating to 1966-67.

@Excludes the effect of concession announced in Parliament during the discussion on Railway Budget.

D—RAILWAY PENSION FUND

(In thousands of rupees)

	Accounts, 1966-67	Budget Estimate, 1967-68	Revised Estimate, 1967-68	Budget Estimate, 1968-69		Accounts, 1966-67	Budget Estimate, 1967-68	Revised Estimate, 1967-68	Budget Estimate, 1968-69
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
Opening Balance	†26,33,33	43,47,10	†45,40,84	53,45,66	Appropriation from Pension Fund.	3,76,55	4,09,93	5,27,12	5,35,05
Appropriation to Pension Fund.	††(a) 20,12,33	(b) 15,50,00	††(c) 11,27,53	(d) 10,30,00	Closing Balance.	44,09,23	56,93,20	53,45,66	60,80,56
Interest on Pension Fund.	1,40,12	2,06,03	*2,04,41	2,39,95					
TOTAL	47,85,78	61,03,13	58,72,78	66,15,61	TOTAL	47,85,78	61,03,13	58,72,78	66,15,61

†Includes 116.50 lakhs in 1966-67 and 131.61 lakhs proposed in 1967-68 by transfer from the State Railway Provident Fund of the accumulated Government contribution to the Provident Fund of pre-1957 staff who elected the pensionary form of retirement benefits before the close of the respective penultimate financial years.

††Includes 612.33 lakhs in 1966-67 and 97.53 lakhs proposed in 1967-68 by transfer from the State Railway Provident Fund of the accumulated Government contribution to the Provident Fund of pre-1957 staff who elected the pensionary form of retirement benefits during the course of the respective financial years.

*Excludes 0.35 lakh on account of adjustment of arrear interest relating to 1966-67.

(a) Includes	40,00	debitable to Workshop Manufacture Suspense Account—CLW (14,32) ICF (16,50) and DLW (9,18)
(b) "	45,00	" " " (16,35) " (18,48) " (10,17)
(c) "	30,00	" " " (10,69) " (13,50) " (5,81)
(d) "	30,00	" " " (10,71) " (13,67) " (5,62)

